

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10—सितम्बर 16, 2016 (भाद्रपद 19, 1938)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10—SEPTEMBER 16, 2016 (BHADRA 19, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2016

रक्षा (एम एस)

सं. 193, दिनांक 16 अगस्त 2016—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जून 2016 से निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

प्रधान अवैतनिक नौसेना ए.डी.सी.

एडमिरल सुनील लान्बा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी (01823 टी)

अवैतनिक नौसेना ए.डी.सी.

वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा, एवीएसएम, वीएसएम (02011 डब्ल्यू)

वाइस एडमिरल एच सी एस बिष्ट, एवीएसएम (02035 जेड)

रेवती रमन
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 194, दिनांक 16 अगस्त 2016—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15600—39100/— (पे बैंड-3) + रु. 5400/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है :-

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2012AB1077	श्री गुगुलौथु गौतम राज	आर सी आई, हैदराबाद	09.07.2012
2013AB1049	श्री बृजेश पटेल	डी आर डी एल, हैदराबाद	05.08.2013
2014AB1041	सुश्री डेज़ी प्रिया टिग्गा	डी एम आर एल, हैदराबाद	01.08.2014
2015AB1088	श्री पुष्पेंद्र सिंह बाघेल	मुख्यालय—एस पी आई सी, नई दिल्ली	07.05.2015

राजीव रंजन

अपर-निदेशक /कार्मिक (डी आर डी एस-II)

सं. 195, दिनांक 17 अगस्त 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत 01 मार्च 2015 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० अक्षया जॉय	एन आर-23828 एल	10 मार्च 1993
ले० प्रियंका रानी	एन आर-23829 एन	16 मार्च 1992
ले० रिन्सी मरियम राज	एन आर-23830 एम	01 फरवरी 1993
ले० एन मेरी चिंचू के टॉम	एन आर-23831 एल	30 जनवरी 1994
ले० मिधूना एस थवराथू	एन आर-23832 एन	05 नवंबर 1992
ले० नयना एस	एन आर-23833 डब्ल्यू	28 फरवरी 1993
ले० करमजीत कौर	एन आर-23834 वाई	13 फरवरी 1993
ले० शिल्पा एस	एन आर-23835 एफ	15 मार्च 1994
ले० सोनिया कुमारी	एन आर-23836 के	15 नवंबर 1992
ले० अर्चना के पी	एन आर-23837 एम	17 अप्रैल 1992
ले० अंकिता मीना	एन आर-23838 वी	02 सितंबर 1992
ले० शीमा थॉमस	एन आर-23839 एक्स	17 फरवरी 1994
ले० कुसुम लामा	एन आर-23840 एम	01 जून 1992
ले० वेधिका ए विजयन	एन आर-23841 वी	07 जनवरी 1994
ले० मोनिका नियांगलामकिम	एन आर-23842 एक्स	21 मार्च 1993

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० सीमा सुब्बा	एन आर-23843 ए	18 अप्रैल 1992
ले० श्री लक्ष्मी ए आर	एन आर-23844 एच	28 मई 1993
ले० इस्मारना राय	एन आर-23845 एल	05 दिसम्बर 1992
ले० मोनिका शर्मा	एन आर-23846 एन	21 जून 1992
ले० स्वाति स्वागातिका स्वाइन	एन आर-23847 डब्ल्यू	31 मार्च 1992
ले० विद्या के	एन आर-23848 वाई	13 अगस्त 1993
ले० भगीरथी ओ	एन आर-23849 एफ	19 नवंबर 1992
ले० अनु ऐलिजाबेथ एंटनी	एन आर-23850 डब्ल्यू	08 मई 1993
ले० स्वाति राय	एन आर-23851 वाई	08 जून 1993
ले० दिव्या एस	एन आर-23852 एफ	30 सितंबर 1992
ले० जेफिन पॉल	एन आर-23853 के	16 अक्टूबर 1991
ले० सरन्या एस	एन आर-23854 एम	27 जून 1993
ले० स्वास्तिका गुरंग	एन आर-23855 पी	23 जुलाई 1991
ले० स्वाति के पी	एन आर-23856 एक्स	09 सितंबर 1993
ले० जीनू	एन आर-23857 ए	14 सितंबर 1993
ले० अरुणिमा सुरेश एस	एन आर-23858 एच	25 मई 1994
ले० अर्चना एम	एन आर-23859 एल	08 नवंबर 1990
ले० चैतन्या एस	एन आर-23860 ए	26 मार्च 1992
ले० श्रीजा के एस	एन आर-23861 एच	15 मई 1993

अल्प अवधि आयोग

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को सेना अनुदेश 17/96 के अंतर्गत जोकि समय समय पर संशोधित किया गया के अंतर्गत 23 मार्च 2015 [बी एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता, (वेतनमान नियमित एवं पदोन्नति के लिये) 23 मार्च 2014 से] से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं -

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० निहारिका बहल	एन एस-23886 पी	08 जनवरी 1992
ले० प्रभजोत कौर	एन एस-23887 एक्स	02 फरवरी 1992
ले० सरन्या मोहनन ए	एन एस-23888 ए	25 दिसम्बर 1985
ले० दीप्ति शर्मा	एन एस-23889 एच	18 दिसम्बर 1986
ले० सुमिता सिबी पी जे	एन एस-23890 एक्स	26 नवम्बर 1987
ले० मनीषा मनोहरन	एन एस-23891 ए	25 मई 1988
ले० मधु तिवेतिया	एन एस-23892 एच	08 अप्रैल 1989
ले० सूसन जोसफ	एन एस-23893 एल	03 जून 1989
ले० तेजस्वी पी सुदाके	एन एस-23894 एन	28 अगस्त 1989
ले० सुमि चौधरी	एन एस-23895 डब्ल्यू	13 नवम्बर 1989
ले० केसिया अनु कुरियन	एन एस-23896 वाई	08 दिसम्बर 1989
ले० कविता भारती	एन एस-23897 एफ	02 मई 1990

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. अचम्मा पी बाबू	एन एस-23898 के	17 मई 1990
ले. सनुजा मजीद	एन एस-23899 एम	31 मई 1990
ले. मीनाक्षी देवी	एन एस-23900 डब्ल्यू	01 नवम्बर 1990
ले. रुपिन्दर कौर	एन एस-23901 वाई	04 मार्च 1991
ले. निखिला राज एम पी	एन एस-23902 एफ	03 मई 1991
ले. यूसी	एन एस-23903 के	04 दिसम्बर 1991
ले. बिन्सी जार्ज	एन एस-23905 पी	25 मई 1987
ले. नीलम	एन एस-23907 ए	14 जुलाई 1989
ले. बितलिन थॉमस	एन एस-23908 एच	07 फरवरी 1990
ले. जीना डेनियल	एन एस-23909 एल	30 अगस्त 1990
ले. शिल्पा चौधरी	एन एस-23910 ए	07 जनवरी 1991
ले. कार्तिका के वी	एन एस-23911 एच	06 फरवरी 1991
ले. निशा यू	एन एस-23912 एल	23 मई 1991
ले. ऊषा राठौर	एन एस-23913 एन	08 जुलाई 1991
ले. अनुप्रभा ए पी	एन एस-23914 डब्ल्यू	11 जुलाई 1988

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी एफ एम एस/एम एन एस 2586/ डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 जोकि समय समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अंतर्गत 01 मार्च 2015 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं —

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० निव्या वी नायर	एन एस-23862 एल	28 जून 1993
ले० प्रयत्ना प्रधान	एन एस-23863 एन	02 मई 1993
ले० सुषमा गौतम	एन एस-23864 डब्ल्यू	05 जुलाई 1989
ले० प्रेरणा बछवान	एन एस-23865 वाई	08 जुलाई 1992
ले० सेल्जा जोसफ	एन एस-23866 एफ	26 नवंबर 1993
ले० आर्या प्रकाश	एन एस-23867 के	27 अप्रैल 1992
ले० ममता बोरा	एन एस-23868 एम	14 मार्च 1992
ले० निशा सिंह	एन एस-23869 पी	03 दिसम्बर 1987
ले० हरिता आर	एन एस-23870 के	15 दिसम्बर 1993
ले० दीपिका एस	एन एस-23871 एम	14 अगस्त 1993
ले० श्रुति मोहन	एन एस-23872 पी	14 सितम्बर 1992
ले० स्टेफी दिलीप	एन एस-23873 एक्स	06 मार्च 1993
ले० श्रीप्रिया एस नायर	एन एस-23874 ए	26 सितम्बर 1992
ले० निषा मुजेल	एन एस-23875 एच	13 अगस्त 1987

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० सहनाज परवीन	एन एस-23876 एल	03 सितम्बर 1992
ले० डिम्पी डांगी	एन एस-23877 एन	01 सितम्बर 1993
ले० मनीषा बिष्ट	एन एस-23878 डब्ल्यू	11 सितम्बर 1990
ले० रिया राजू	एन एस-23879 वाई	24 सितम्बर 1993
ले० आरती कुमारी	एन एस-23880 एन	08 जून 1990
ले० श्यूली राय	एन एस-23881 डब्ल्यू	13 जनवरी 1989
ले० अंजलप्रीत कौर	एन एस-23882 वाई	10 दिसम्बर 1992
ले० आथिरा राजू	एन एस-23883 एफ	08 अक्टूबर 1993
ले० मैरी लिंग नेयथेम	एन एस-23884 के	01 मार्च 1992
ले० आरती कुमारी	एन एस-23885 एम	22 अप्रैल 1994

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को सेना अनुदेश 17/96 के अंतर्गत जोकि समय समय पर संशोधित किया गया के अंतर्गत 24 अगस्त 2015 [बी एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता, (वैतनमान नियमित एवं पदोन्नति के लिये) 24 अगस्त 2014 से] से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं -

लेफ्टिनेंट परख पर

ले. रेश्मा एस नायर	एन एस-23915 वाई	19 फरवरी 1992
ले. नीतू दास	एन एस-23916 एफ	22 अप्रैल 1992
ले. राजलक्ष्मी वी आर	एन एस-23917 के	04 जनवरी 1982
ले. सीजि के चाको	एन एस-23918 एम	27 फरवरी 1987
ले. रहिशा	एन एस-23919 पी	05 मई 1987
ले. अन्जू रानी	एन एस-23920 के	21 अक्टूबर 1986

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को सेना अनुदेश 17/96 के अंतर्गत जोकि समय समय पर संशोधित किया गया के अंतर्गत 23 मार्च 2015 [एम एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता, (वैतनमान नियमित एवं पदोन्नति के लिये) 23 मार्च 2013 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं -

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले० विजी पी वी	एन एस-23904 एम	02 मार्च 1986
ले० सरस्वती सी	एन एस-23906 एक्स	23 जून 1988

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को सेना अनुदेश 17/96 के अंतर्गत जोकि समय समय पर संशोधित किया गया के अंतर्गत 15 नवम्बर 2014 [बी एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता, (वैतनमान नियमित एवं पदोन्नति के लिये) 15 नवम्बर 2013 से] से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अल्प अवधि कमीशन प्रदान करते हैं -

लेफ्टिनेंट परख पर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. ज्योति	एन एस-23513 एफ	15 जुलाई 1991
ले. स्वाति कौशिक	एन एस-23514 के	26 मई 1991
ले. सुनीमोल एस	एन एस-23515 एम	17 सितम्बर 1980
ले. स्वप्ना	एन एस-23518 ए	07 अप्रैल 1981
ले. अस्वथी पी नायर	एन एस-23519 एच	16 जून 1990

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. अमृता	एन एस-23521 ए	17 अक्टूबर 1989
ले. अपर्णा एम	एन एस-23522 एच	24 अक्टूबर 1989
ले. सुम्मी सागर	एन एस-23525 डब्ल्यू	01 अगस्त 1991
ले. एलविन कुरियन	एन एस-23527 एफ	25 जनवरी 1988
ले. संगीता मलिक	एन एस-23528 के	26 जून 1990
ले. टीनू	एन एस-23529 एम	12 सितम्बर 1990
ले. जगदीप कौर	एन एस-23530 एफ	27 दिसम्बर 1992
ले. रम्या श्रुति चिलका	एन एस-23531 के	30 मई 1987
ले. दीपामनी बरमन	एन एस-23532 एम	01 जनवरी 1988
ले. ज्योति	एन एस-23534 एक्स	01 अगस्त 1990
ले. सोनल	एन एस-23535 ए	07 जून 1991
ले. मनजीत कंवर	एन एस-23536 एच	11 जनवरी 1992
ले. सत्या सिंह पटेल	एन एस-23537 एल	23 फरवरी 1992
ले. रुमा रानी दत्ता	एन एस-23539 डब्ल्यू	11 अगस्त 1987
ले. सौम्या जी एस कृष्णन	एन एस-23540 एल	12 जनवरी 1989
ले. दीप्ति गुप्ता	एन एस-23541 एन	25 सितम्बर 1989
ले. सुरभि	एन एस-23542 डब्ल्यू	15 अक्टूबर 1990
ले. जसमैल कौर	एन एस-23543 वाई	22 अगस्त 1991
ले. एम नाज़िम बानू	एन एस-23544 एफ	26 अप्रैल 1983
ले. नैन्सी कुमारी	एन एस-23546 एम	29 अगस्त 1988
ले. ऐशवर्या लक्ष्मी	एन एस-23547 पी	03 मई 1991
ले. अनघा ए आर	एन एस-23549 ए	18 मई 1989
ले. मीराबाई के	एन एस-23550 पी	04 सितम्बर 1989
ले. नेहा शर्मा	एन एस-23551 एक्स	29 दिसम्बर 1989
ले. प्रियंका	एन एस-23552 ए	01 अगस्त 1990
ले. स्वीटी शर्मा	एन एस-23553 एच	14 अगस्त 1990
ले. स्वर्णा कांति पांडा	एन एस-23554 एल	10 मई 1980
ले. सुलोचना कुलदीप	एन एस-23557 वाई	18 अक्टूबर 1987
ले. आर सारन्य	एन एस-23558 एफ	30 अप्रैल 1988
ले. मीनाक्षी	एन एस-23560 वाई	05 जनवरी 1990
ले. अर्चना वी कायमल	एन एस-23561 एफ	19 फरवरी 1990
ले. मीनल भाटिया	एन एस-23562 के	19 अप्रैल 1990
ले. प्रीति थॉमस	एन एस-23563 एम	15 जून 1990

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. दीपम कुमारी चौहान	एन एस-23564 पी	20 अगस्त 1990
ले. कांति श्री विनाकोटा	एन एस-23565 एक्स	27 मार्च 1991
ले. रमनप्रीत कौर	एन एस-23566 ए	19 फरवरी 1992
ले. रीना कुमारी	एन एस-23567 एच	01 जुलाई 1989
ले. प्रियंका	एन एस-23568 एल	08 सितम्बर 1989
ले. दिव्या नेगी	एन एस-23569 एन	27 जनवरी 1990
ले. सरन्य एस	एन एस-23570 एच	09 अप्रैल 1990
ले. बिबी थॉमस	एन एस-23571 एल	01 फरवरी 1991
ले. राधिका ए	एन एस-23572 एन	29 जुलाई 1991
ले. कोन्थुजम बिद्रयाकुमारी देवी	एन एस-23575 एफ	02 फरवरी 1989
ले. दीपाली शर्मा	एन एस-23576 के	09 जुलाई 1990
ले. एल्सा जोस	एन एस-23577 एम	01 दिसम्बर 1990
ले. शिवानी	एन एस-23578 पी	03 अगस्त 1991
ले. लिन्सी थॉमस	एन एस-23580 एम	23 मई 1983
ले. नीलम कुमारी	एन एस-23582 एक्स	07 सितम्बर 1986
ले. रम्या राज एम	एन एस-23584 एच	18 मई 1987
ले. रमनदीप कौर	एन एस-23585 एल	06 अप्रैल 1988
ले. शिजिन एंटनी	एन एस-23586 एन	10 अगस्त 1988
ले. जयश्री बिसवास	एन एस-23588 वाई	30 मार्च 1989
ले. आभा सिंह	एन एस-23590 डब्ल्यू	25 जुलाई 1989
ले. दुरबाषा देवी	एन एस-23591 वाई	10 अप्रैल 1990
ले. विद्या देवी	एन एस-23592 एफ	17 जनवरी 1991
ले. सरिता	एन एस-23593 के	21 जनवरी 1991
ले. अनिता कुमारी मौर्य	एन एस-23594 एम	04 जून 1991
ले. अमनदीप कौर	एन एस-23595 पी	04 दिसम्बर 1992
ले. अमिता कुमारी	एन एस-23596 एक्स	10 अगस्त 1987
ले. अस्वथी विजय	एन एस-23597 ए	17 अप्रैल 1988
ले. जी सिमी	एन एस-23598 एच	20 मार्च 1989
ले. हरमनजीत कौर	एन एस-23599 एल	28 फरवरी 1990
ले. तेरेसा मिलिन जोस	एन एस-23600 पी	09 जून 1990
ले. सिया जोय के	एन एस-23601 एक्स	10 अगस्त 1990
ले. दिव्या पाल	एन एस-23602 ए	20 नवम्बर 1990
ले. रमनदीप कौर	एन एस-23603 एच	13 अगस्त 1991

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. चँदा पटेल	एन एस-23604 एल	10 मई 1992
ले. रिनजिन ड्रेमा शारजो	एन एस-23606 डब्ल्यू	12 जनवरी 1985
ले. जसीना वी	एन एस-23608 एफ	13 दिसम्बर 1986
ले. इन्दुशा एम	एन एस-23609 के	13 जून 1987
ले. वर्षा पाटिल	एन एस-23610 वाई	18 अगस्त 1987
ले. जिलसी थॉमस	एन एस-23611 एफ	13 मई 1988
ले. अनुपमा मंडल	एन एस-23612 के	14 अगस्त 1988
ले. अनिता नेहरा	एन एस-23613 एम	07 जुलाई 1989
ले. सुमन लता	एन एस-23614 पी	10 जुलाई 1989
ले. श्रुति राविन्द्रन पी	एन एस-23615 एक्स	22 जनवरी 1990
ले. नमिता वी शेटी	एन एस-23616 ए	19 जून 1990
ले. अस्वथी अय्यपन एस	एन एस-23617 एच	04 सितम्बर 1990
ले. ममता कुमारी भंडारी	एन एस-23618 एल	04 जनवरी 1991
ले. सोनिजा मेरी एंटनी	एन एस-23619 एन	02 मार्च 1991
ले. ज्योतस्ना कश्यप	एन एस-23620 एच	07 जुलाई 1991
ले. सविता	एन एस-23621 एल	20 सितम्बर 1991
ले. लिजी पी एम	एन एस-23623 डब्ल्यू	30 मई 1986
ले. स्नेहा ए एम	एन एस-23624 वाई	13 मार्च 1988
ले. वंदना थॉमस	एन एस-23625 एफ	26 सितम्बर 1989
ले. जिस्मी साजू	एन एस-23626 के	19 फरवरी 1990
ले. शर्ली एलिजाबेथ एलक्स	एन एस-23627 एम	05 अप्रैल 1990
ले. ज्योति देवी	एन एस-23628 पी	13 अप्रैल 1990
ले. भारती देवी	एन एस-23629 एक्स	14 मई 1990
ले. विनीता शाही	एन एस-23630 एम	16 जुलाई 1990
ले. विजया बिष्ट	एन एस-23631 पी	29 सितम्बर 1990
ले. पाउलामी मलिक	एन एस-23632 एक्स	07 नवम्बर 1990
ले. स्वादमश्री नारज़री	एन एस-23633 ए	01 दिसम्बर 1990
ले. रेनू	एन एस-23634 एच	04 फरवरी 1991
ले. शानी मैथ्यू	एन एस-23635 एल	05 अगस्त 1991
ले. सुखप्रीत कौर	एन एस-23636 एन	25 अगस्त 1991
ले. हरमनदीप कौर	एन एस-23637 डब्ल्यू	02 सितम्बर 1991
ले. डाउटी जॉनसन	एन एस-23641 वाई	17 अक्टूबर 1987
ले. आरोकिया शलिनी जी	एन एस-23642 एफ	29 फरवरी 1988

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. करमजीत कौर	एन एस-23643 के	26 अगस्त 1988
ले. जॉयसी जॉय	एन एस-23644 एम	16 अक्टूबर 1988
ले. अस्वथी टी पी	एन एस-23645 पी	21 नवम्बर 1988
ले. अक्षया सोमाराज	एन एस-23646 एक्स	22 मई 1989
ले. अनु फिलिप	एन एस-23647 के	03 जून 1989
ले. जीना चाकौ	एन एस-23648 एच	02 फरवरी 1990
ले. अनुमोल एन आर	एन एस-23649 एल	03 जुलाई 1990
ले. पी मोनिका	एन एस-23650 ए	21 अगस्त 1990
ले. रेश्मा सलीम	एन एस-23651 एच	22 अक्टूबर 1990
ले. मारिया जोसफ	एन एस-23652 एल	21 नवम्बर 1990
ले. ज्योति विनुबाई दिलादिया	एन एस-23653 एन	11 जनवरी 1991
ले. प्रियंका शर्मा	एन एस-23654 डब्ल्यू	02 दिसम्बर 1985
ले. निशा एन	एन एस-23655 वाई	12 अक्टूबर 1987
ले. अस्वथी कुरियाकोस	एन एस-23656 एफ	02 दिसम्बर 1987
ले. चित्रा एम एस	एन एस-23657 के	19 नवम्बर 1988
ले. नीलम राणा	एन एस-23658 एम	14 जनवरी 1989
ले. मीनू वर्मा	एन एस-23659 पी	03 सितम्बर 1989
ले. रोजमेरी पॉल	एन एस-23660 के	06 अप्रैल 1990
ले. गीता कैरा	एन एस-23661 एम	19 मई 1990
ले. आतिरा पी	एन एस-23662 पी	29 मई 1990
ले. अदिती गुप्ता	एन एस-23663 एक्स	13 जून 1990
ले. मीनू	एन एस-23664 ए	06 अगस्त 1990
ले. अर्पिता घोष	एन एस-23665 एच	12 अगस्त 1990
ले. रेबेका जोय	एन एस-23666 एल	24 अक्टूबर 1990
ले. पार्वती पी	एन एस-23667 एन	18 जनवरी 1991
ले. रंजूषा के वी	एन एस-23668 डब्ल्यू	16 मार्च 1991
ले. ललिता हंस	एन एस-23669 वाई	27 सितम्बर 1991
ले. अंजू मैथ्यू	एन एस-23670 एन	05 जनवरी 1992
ले. नीलम ठाकुर	एन एस-23671 डब्ल्यू	10 जनवरी 1992
ले. लिन्डा सारा जॉन	एन एस-23673 एफ	07 मई 1985
ले. सुधा शर्मा	एन एस-23674 के	01 अक्टूबर 1986
ले. प्रोमि हज़ारिका	एन एस-23676 पी	23 अगस्त 1988
ले. इरीका सूसन डेनियल	एन एस-23677 एक्स	20 सितम्बर 1988

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. कमल प्रीत कौर	एन एस-23678 ए	15 जनवरी 1989
ले. नीतू जकारिया	एन एस-23679 एच	21 जनवरी 1989
ले. गगनदीप कौर	एन एस-23680 एक्स	28 अक्टूबर 1989
ले. पूनम कुमारी	एन एस-23681 ए	03 नवम्बर 1988
ले. शिमना एम के	एन एस-23682 एच	20 दिसम्बर 1989
ले. पूजा रानी	एन एस-23683 एल	28 जुलाई 1990
ले. ऊर्मिता कुमारी	एन एस-23684 एन	06 अगस्त 1990
ले. अराथना पी	एन एस-23685 डब्ल्यू	03 जनवरी 1991
ले. सुधरिति कुन्डु	एन एस-23686 वाई	14 मार्च 1991
ले. मीनाक्षी रावत	एन एस-23687 एफ	20 जून 1991
ले. चित्रा ओ आर	एन एस-23688 के	10 सितम्बर 1987
ले. अमल एंटनी	एन एस-23691 के	18 अक्टूबर 1989
ले. सुमन चौधरी	एन एस-23692 एम	25 अक्टूबर 1989
ले. कुलविन्दर कौर	एन एस-23693 पी	04 फरवरी 1990
ले. संजू थॉमस	एन एस-23694 एक्स	05 जून 1990
ले. प्रियंका गुप्ता	एन एस-23695 ए	08 अगस्त 1990
ले. स्मृति रॉय	एन एस-23696 एच	15 अक्टूबर 1990
ले. मधु बाला पुरी	एन एस-23697 एल	17 अक्टूबर 1990
ले. राधा	एन एस-23698 एन	22 नवम्बर 1990
ले. किरन यादव	एन एस -23699 डब्ल्यू	31 दिसम्बर 1990
ले. आतिरा एम आर	एन एस -23700 ए	09 मई 1991
ले. चित्रा तमंग	एन एस-23701 एच	16 नवम्बर 1991
ले. ज्योति कुमारी	एन एस-23702 एल	21 जनवरी 1992
ले. रोशनी अब्राहम	एन एस-23703 एन	03 अप्रैल 1992
ले. जीना ग्रगोरी	एन एस-23704 डब्ल्यू	15 मई 1985
ले. सुरुचि कटियार	एन एस-23705 वाई	27 मई 1985
ले. अंजु पार्वती दास	एन एस-23706 एफ	27 अक्टूबर 1986
ले. रोहिता अमुडाला	एन एस-23707 के	02 नवम्बर 1986
ले. लिट्टी एंटनी	एन एस-23708 एम	08 दिसम्बर 1987
ले. राजवीर कौर	एन एस-23709 पी	22 अगस्त 1988
ले. बालकेश	एन एस-23710 के	05 मई 1989
ले. रोजी ठाकुर	एन एस-23711 एम	19 जुलाई 1989
ले. अंजना स्वामिनॉथन	एन एस-23712 पी	14 नवम्बर 1989

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. किम्नेलिंग मर्सी हओकिप	एन एस-23713 एक्स	23 नवम्बर 1989
ले. दीपा सोमन	एन एस-23714 ए	02 फरवरी 1990
ले. जासमिन जेमस	एन एस-23715 एच	26 अप्रैल 1990
ले. कंचन धीमन	एन एस-23716 एल	31 अगस्त 1990
ले. सोबी थॉमस के	एन एस-23717 एन	08 नवम्बर 1990
ले. हरजीत कौर	एन एस-23718 डब्ल्यू	13 दिसम्बर 1990
ले. हेल्ना के वी	एन एस-23719 वाई	17 जनवरी 1991
ले. मोनिका यादव	एन एस-23720 एन	28 जनवरी 1991
ले. विद्यामोल के के	एन एस-23721 डब्ल्यू	01 फरवरी 1991
ले. राजदीप कौर	एन एस-23722 वाई	25 मई 1991
ले. एकता पटियाल	एन एस-23723 एफ	13 अगस्त 1991
ले. रीना राणा	एन एस-23724 के	10 अक्टूबर 1991
ले. निशा	एन एस-23725 एम	18 अक्टूबर 1991
ले. नीतू सन्नी	एन एस-23731 ए	08 जुलाई 1988
ले. गीतु जेम्स के जे	एन एस-23732 एच	11 सितम्बर 1989
ले. अंजुमोल ए आर	एन एस-23733 एल	22 नवम्बर 1989
ले. अनिता कुमारी	एन एस-23734 एन	23 अगस्त 1990
ले. नेहा सिंह	एन एस-23735 डब्ल्यू	20 सितम्बर 1990
ले. नीतू कुमारी	एन एस-23736 वाई	12 फरवरी 1991
ले. बी सुजिता	एन एस-23737 एफ	12 जून 1991
ले. सोनिया गौड़ा	एन एस-23738 के	07 जुलाई 1991
ले. सुर्वणा एस एस	एन एस-23739 एम	26 मार्च 1988
ले. आशालता सी एच	एन एस-23740 एफ	07 अगस्त 1988
ले. पूजा कुमारी	एन एस-23741 के	08 सितम्बर 1988
ले. अर्चना कुमारी	एन एस-23742 एम	10 अप्रैल 1989
ले. शिजी बी एस	एन एस-23743 पी	06 अप्रैल 1990
ले. सजनी वी चम्पोला	एन एस-23744 एक्स	17 मई 1990
ले. शर्मीला देवी सी	एन एस-23745 ए	27 मई 1990
ले. जौली जॉन	एन एस-23746 एच	30 जून 1990
ले. सुशीला गुर्जर	एन एस-23747 एल	03 जुलाई 1990
ले. स्त्रीशा रमेश	एन एस-23748 एन	30 अगस्त 1990
ले. सरिता	एन एस-23749 डब्ल्यू	08 अक्टूबर 1990
ले. निम्मी जार्ज	एन एस-23750 एल	06 नवम्बर 1990

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. ज्योति कुमारी	एन एस-23751 एन	27 अक्टूबर 1991
ले. सागरिका साहू	एन एस-23752 डब्ल्यू	10 जुलाई 1981
ले. मन्जु नयनन	एन एस-23753 वाई	27 जून 1983
ले. निशा एस	एन एस-23754 एफ	24 अप्रैल 1985
ले. स्मृति पाल	एन एस-23756 एम	23 दिसम्बर 1987
ले. नीतू जोस पी	एन एस-23758 एक्स	09 फरवरी 1989
ले. अम्मु आर कुरुप	एन एस-23759 ए	06 मई 1989
ले. निम्मी एम जे	एन एस-23760 पी	01 जनवरी 1990
ले. रेन्जिनी पी	एन एस-23761 एक्स	14 अप्रैल 1990
ले. मीनू सी पी	एन एस-23762 ए	27 जून 1990
ले. लिपिका खान	एन एस-23763 एच	01 मई 1991
ले. सहाना इस्लाम	एन एस-23764 एल	30 जून 1991
ले. अस्वथी बी नायर	एन एस-23765 एन	29 अप्रैल 1986
ले. ज्योति के वी	एन एस-23766 डब्ल्यू	27 मई 1986
ले. जयश्री एम ए	एन एस-23768 एफ	15 अगस्त 1986
ले. मिलन थॉमस	एन एस-23769 के	16 मई 1987
ले. लखविन्दर कौर	एन एस-23770 वाई	03 जनवरी 1988
ले. रितू रानी	एन एस-23771 एफ	12 मई 1988
ले. शाहीना बेगम	एन एस-23773 एम	11 जुलाई 1988
ले. वैषाली कुन्डू	एन एस-23774 पी	26 अप्रैल 1989
ले. जी एम हेमलता	एन एस-23775 एक्स	01 जनवरी 1990
ले. प्रतिमा कुमारी मंडल	एन एस-23776 ए	04 फरवरी 1990
ले. प्रियंका रावत	एन एस-23777 एच	15 जुलाई 1990
ले. सिमी जॉन	एन एस-23778 एल	01 अक्टूबर 1990
ले. रमिन्दर कौर ढिल्लौ	एन एस-23779 एन	20 फरवरी 1991
ले. सोनिया एल	एन एस-23780 एच	02 अगस्त 1991
ले. लिन्सी जोसफ	एन एस-23781 एल	12 दिसम्बर 1984
ले. एलिजाबेथ जोसफ	एन एस-23782 एन	14 मई 1986
ले. बासंती कुजुर	एन एस-23783 डब्ल्यू	23 अक्टूबर 1986
ले. इब्थिसाम एम	एन एस-23784 वाई	25 अगस्त 1987
ले. वंदना कौशिक	एन एस-23785 एफ	05 मई 1988
ले. पूजा शिशोधिया	एन एस-23787 एम	01 जनवरी 1989
ले. शायनी इसाक	एन एस-23788 पी	15 फरवरी 1989
ले. जी दुर्गा प्रसन्ना	एन एस-23789 एक्स	19 अप्रैल 1989

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	जन्म तिथि
ले. अमला मार्य राजन	एन एस-23790 एम	10 मई 1989
ले. निमिल थॉमस	एन एस-23791 पी	28 दिसम्बर 1989
ले. सुनीला के वी	एन एस-23793 ए	15 जून 1990
ले. डालमिया जार्ज	एन एस-23794 एच	30 जुलाई 1990
ले. नवप्रीत कौर ग्रेवाल	एन एस-23795 एल	26 मार्च 1991
ले. रिचा शर्मा	एन एस-23796 एन	09 अप्रैल 1991
ले. बलविन्दर कौर	एन एस-23797 डब्ल्यू	19 मई 1991
ले. रेम्या आर	एन एस-23798 वाई	30 मई 1991
ले. अमनप्रीत कौर	एन एस-23799 एफ	17 सितम्बर 1991
ले. सोनाली शंकर बोराडे	एन एस-23800 एल	02 अप्रैल 1983
ले. सरुचि कुमारी	एन एस-23801 एन	10 अगस्त 1983
ले. रेन्जु आर आई	एन एस-23802 डब्ल्यू	16 मई 1984
ले. मेरीन थॉमस	एन एस-23806 एम	09 मई 1990
ले. लिट्टीमोल कुरियन	एन एस-23807 पी	01 अक्टूबर 1990
ले. तनुश्री सरकार	एन एस-23808 एक्स	01 जनवरी 1991
ले. एम वीना	एन एस-23809 ए	11 अगस्त 1991
ले. आरती मनोहर	एन एस-23810 पी	24 अक्टूबर 1991
ले. साक्षी	एन एस-23811 एक्स	19 नवम्बर 1991
ले. राधिका	एन एस-23812 ए	09 मार्च 1992
ले. सौयमी जार्ज	एन एस-23813 एच	19 जनवरी 1985
ले. डालिया जॉन	एन एस-23815 एन	27 अक्टूबर 1985
ले. अजिना जे	एन एस-23816 डब्ल्यू	28 मई 1986
ले. स्मृतिका शीबा दास	एन एस-23817 वाई	11 अप्रैल 1987
ले. लिन्जु एल	एन एस-23818 एफ	11 मई 1987
ले. निशा बेनीवाल	एन एस-23820 वाई	12 मई 1987
ले. बबली कादियान	एन एस-23821 एफ	22 जुलाई 1989
ले. गुरप्रीत कौर	एन एस-23822 के	26 जुलाई 1989
ले. रिचा ठाकुर	एन एस-23823 एम	28 जून 1990
ले. शोभा कौशल	एन एस-23824 पी	22 नवम्बर 1990
ले. विथ्थूमोल विजयकुमार	एन एस-23825 एक्स	01 अप्रैल 1991
ले. शैली	एन एस-23826 ए	21 मई 1991
ले. नवनीत कौर	एन एस-23827 एच	26 दिसम्बर 1991

सुशीला शाही
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

सेना सचिव शाखा

सं. 196, दिनांक 17 अगस्त 2016—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

मेजर जनरल के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	मेजर जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी—40097 ए/मेजर जनरल राजन कोचर, ए ओ सी	05.10.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 20.10.11 से दी जायेगी।
आई सी—40363 मेजर जनरल एन जे जॉर्ज, गढ रिफ	18.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.06.12 से दी जायेगी।
आई सी—40714 मेजर जनरल बी जी गिलगंची, सिग्स	30.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12.06.12 से दी जायेगी।
आई सी—40727 मेजर जनरल आर के चौधरी, सिग्स	30.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.06.12 से दी जायेगी।
आई सी—40736 मेजर जनरल एम के मुखर्जी, आर्टी	30.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13.06.12 से दी जायेगी।
आई सी—40801 मेजर जनरल आर के बंशीवाल, इंट	19.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.06.12 से दी जायेगी।
आई सी—40804 मेजर जनरल डी वी सेतिया, वी एस एम, इंजीनियर्स	01.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15.06.12 से दी जायेगी।
आई सी—40948 मेजर जनरल के आर प्रसाद, आर्टी	23.11.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16.06.12 से दी जायेगी।

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी—45468 ए/ब्रिग एन जोशी, ए ओ सी	01.02.16 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.10.10 से दी जायेगी।
आई सी—44036 ए/ब्रिग अतुल रावत, मेक इंफ	04.09.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23.06.11 से दी जायेगी।
आई सी—48879 ए/ब्रिग आर कपूर, इंजीनियर्स	01.05.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 24.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—48897 ए/ब्रिग डी एन भट्ट, इंजीनियर्स	01.07.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 25.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—47011 ए/ब्रिग विनायक सैनी, इंजीनियर्स	01.07.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 27.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—47034 ए/ब्रिग डी एस रावत, इंजीनियर्स	01.08.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 28.01.12 से दी जायेगी।
आई सी—47041 ए/ब्रिग एस बी सिंह, मेक इंफ	01.04.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 29.01.12 से दी जायेगी।

आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
आई सी-47079 ए/ब्रिग संजय सेठी, ए ओ सी	12.06.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47096 ए/ब्रिग एस के विद्यार्थी, इंजीनियर्स	01.08.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47210 ए/ब्रिग सुनीत मलिक, सिग्स	01.05.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 05.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47231 ए/ब्रिग मनजीत सिंह, सिग्स	01.07.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47283 ए/ब्रिग जे एस महेन्द्र, सिग्स	01.07.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-47012 ए/ब्रिग टी एस मुण्डी, आर्म्ड	01.05.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09.02.12 से दी जायेगी।
आई सी-49367 ए/ब्रिग जी पी चमोली, सिग्स	01.09.15 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11.02.12 से दी जायेगी।

देबाशिस प्रधान
उप निदेशक एम एस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 197, दिनांक 18 अगस्त 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) से सर्ज रियर एडमिरल (व समकक्ष) के पद पर

बी चक्रवर्ती (एमआर-05228ए) (76309-बी)	- 13-07-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-07-15 से दी जाती है।
--	--

सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) से सर्ज कमोडोर (व समकक्ष) के पद पर

आर रे, वीएसएम (एमआर-06211वाई) (75428-ए)	- 12-01-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-11-15 से दी जाती है।
--	--

कर्नल(व समकक्ष) से ब्रिगेडियर (व समकक्ष) के पद पर

के सत्यानंद, एसएम (एमआर-05050पी)	- 22-09-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 13-07-15 से दी जाती है।
टी के साहू (एमआर-05790के)	- 05-10-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 17-09-15 से दी जाती है।

ले.कर्नल(व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

जी हिमाश्री (एमआर-05527वाई)	- 01-06-2009
--------------------------------	--------------

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20 जून 2015 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो कि कर्नल पदोन्नति से संबंधित है जिसका संबंध उपर्युक्त अधिकारी से है, उसे रद्द किया जाता है ।

सर्ज कमांडर (व समकक्ष) से सर्ज कैप्टन (व समकक्ष) के पद पर

एच बी एस चौधरी (एमआर-06545एन)(75563-एच)	—	16-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-01-15 से दी जाती है ।
संजीव कुमार (एमआर-07212एन)(75599-आर)	—	13-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-02-15 से दी जाती है ।
आर के पटेल (एमआर-06729एम)(75584-एफ)	—	20-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 05-02-15 से दी जाती है ।
आर शिवशंकर (एमआर-06730एफ)(75585-एच)	—	01-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-02-15 से दी जाती है ।
एस चावला (एमआर-06731के)(75586-के)	—	01-03-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 07-02-15 से दी जाती है ।
पी गोकुलकृष्णन (एमआर-06815एक्स)(75602-वाई)	—	01-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 21-07-15 से दी जाती है ।
बी विकास (एमआर-07447ए)(75621-आर)	—	25-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 06-08-15 से दी जाती है ।
जी के श्रीराम (एमआर-07494एक्स)(75622-टी)	—	08-10-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-15 से दी जाती है ।
आर यादव (एमआर-06858एम)(75911-जेड)	—	01-12-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-10-15 से दी जाती है ।

ले कर्नल(व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

टोनी जोस (एमआर-07307एन)	—	02-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-14 से दी जाती है ।
के के अश्ता (एमआर-07665वाई)	—	09-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-14 से दी जाती है ।
एम एस सिवाकुमार (एमआर-07232एफ)	—	01-09-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-14 से दी जाती है ।
डी शर्मा (एमआर-07332एम)	—	07-09-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-14 से दी जाती है ।
एम के जैन (एमआर-07211एल)	—	15-09-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-14 से दी जाती है ।
एस एस रॉय (एमआर-07392एफ)	—	22-09-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 09-10-14 से दी जाती है ।
विवेक गुप्ता (एमआर-07444एम)	—	25-09-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 10-10-14 से दी जाती है ।

एच एस पद्मीनी (एमआर-07442एफ)	-	13-10-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18-10-14 से दी जाती है ।
एन रंगनाथ (एमआर-07393के)	-	14-10-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-10-14 से दी जाती है ।
के के शर्मा (एमआर-07331के)	-	16-10-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 25-10-14 से दी जाती है ।
एस के गुप्ता (एमआर-07510के)	-	02-11-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-11-14 से दी जाती है ।
वी एस कान्याल (एमआर-07495ए)	-	30-11-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-11-14 से दी जाती है ।
आर के श्रीवास्तवा (एमआर-07371एल)	-	01-12-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-14 से दी जाती है ।
बी बासु (एमआर-07394एम)	-	16-12-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-12-14 से दी जाती है ।
अराधना सूद (एमआर-06738एन)	-	04-01-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30-12-14 से दी जाती है ।
राखी के गोयल (एमआर-06744एफ)	-	04-01-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-01-15 से दी जाती है ।
एस सिन्हा (एमआर-06635पी)	-	17-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-03-14 से दी जाती है ।
राजीव कुमार (एमआर-06639एल)	-	01-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-03-14 से दी जाती है ।
एस के मिश्रा (एमआर-07370एच)	-	25-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-06-14 से दी जाती है ।
हिमांशु दिक्षित (एमआर-07206ए)	-	25-08-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-14 से दी जाती है ।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-07054के (एएफ-21717-एन)	विंग कमांडर	विवेक जायसवाल	08 जुलाई 2015
विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन (टीएस) के पद पर			
एमआर-07376के (एएफ-21794जी)	विंग कमांडर	नीरू सूद	09 सितंबर 2015
सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर			
एमआर-06261के (75491-डब्ल्यू)	सर्ज कमांडर	मनिरुल हक	12 दिसम्बर 2015

ले. कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

एमआर-06264एक्स	ले. कर्नल	संजय जायसवाल	12 दिसम्बर 2016
एमआर-7213डब्ल्यू	ले. कर्नल	एस त्रिपाठी	01 जनवरी 2016

आर के रान्याल
एयर कम्डोर
उपमहानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

सेना शाखा

सं. 198, दिनांक 18 अगस्त 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले0 कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक नं0	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आईसी 58167	एम महालिंगम	ए सी	10 / 12 / 2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04 / 03 / 2013
आईसी 55575	आर चौधरी,एस एम*	इन्फैन्ट्री	30 / 09 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04 / 03 / 2013
आईसी 56084	राजीव आर एस, एस एम**	इन्फैन्ट्री	05 / 05 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58600	डी शर्मा	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58604	अभिषेक डी	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58605	डी कोतवाल, एस एम	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58618	पी अत्री	इन्फैन्ट्री	14 / 03 / 2016 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58643	के यू केकरे	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58651	एस यादव	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58667	ए मिश्रा	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58705	जे एस असवाल	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58711	दिलप्रीत सिंह	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58747	मोहित थापा	इन्फैन्ट्री	18 / 10 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58769	डी एल कुमार	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58772	संजय रावत	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58836	एन भावर	इन्फैन्ट्री	16 / 03 / 2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58837	डी शर्मा, एस एम	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58845	सौरभ खन्ना	इन्फैन्ट्री	27 / 10 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58849	पेंड्से ए जे	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58854	एम झा	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58889	के के सिंह	इन्फैन्ट्री	10 / 10 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 58899	अमिय त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री	07 / 08 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59042	बी एन नायक, एस एम	इन्फैन्ट्री	12 / 06 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56178	एम बी सिंह	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56180	बी सिंह	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014

वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आईसी 56206	आर पी सिंह	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56218	बी सिंह, एम वी सी	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56248	के सिंह	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56249	एस एस सुर्वे	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56267	आर ठाकुर	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56281	ए त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56286	एम खरे	इन्फैन्ट्री	06 / 11 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 56512	पी सोरायन	इन्फैन्ट्री	15 / 04 / 2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59065	रितेश कटोच	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59067	हेमंत एस पी	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59069	मानव यादव, एस सी	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59070	सरफराज सिंह	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59072	एस शर्मा, एस एम	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59076	आई पी सिंह	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59082	हरपिंदर एस एस	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59088	विजय के एस	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59092	पुष्पेंद्र सिंह	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59097	एस सुजा, एस एम	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59098	आदित्य सिंह, एस एम	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59100	शैलेन्द्र एस	इन्फैन्ट्री	28 / 03 / 2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59105	आर शरन	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59124	राहुल मिश्रा	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59131	श्रोत सिंह	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59138	ए जटराना, एस एम	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59139	रणधीर के एस	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59141	आर रावत	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59154	फनजोबम एस एस	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59159	एम पार्थसारथी	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59168	ए एस हुडा	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59169	माधवन आई	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59175	एस घोशाल, एस एम	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59183	सुधीर चमोली	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59201	निशांत सानवाल	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59203	राजीव थामस	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014
आईसी 59208	बी तोमर	इन्फैन्ट्री	11 / 12 / 2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05 / 03 / 2014

वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आईसी 59240	मयंक एस जे	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59248	जे के जोशेफ	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59262	विनय, एस एम	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59265	बलबीर सिंह	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59267	तुषार एम	इन्फैन्ट्री	20/04/2015 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59289	एम दर्शन	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59295	एस हरिहर	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59337	बी वी कुमार, एस एम	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59338	नीरज	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59357	अरिंदम पी	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59364	विजय वी एस डी	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59371	मानस के एम	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59394	बीरेन्द्र के आर	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59397	आर पाल सिंह	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59415	एस भांगडा	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59417	अमित कुमार, एस एम	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59440	देशपाण्डेय वी के	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59450	अमूल्य पी एस	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59456	भारत एस आर	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59460	प्रशांत एस	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59461	एम वाम्सी पी	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59470	मनोज ए पी, एस सी एस एम	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59478	बलबीर झा	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59491	एन थापा	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59501	वाई कुमार पी	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59503	आर एस ढींगरा, एस एम	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 59515	शरद एस	इन्फैन्ट्री	11/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 58701	आर के एन माने, एस एम	इन्फैन्ट्री	12/06/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 57909	नवीन कुमार	इन्फैन्ट्री	26/06/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 55989	ए भंडारी	इन्फैन्ट्री	30/05/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014
आईसी 56922	ए एम कुलकर्णी	ए ई सी	28/06/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 21/07/2011
आईसी 58565	जगजीत बासवाना	मिलिट्री फार्म	17/01/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013
आईसी 55919	संजय कुमार	गाड्स	15/09/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 05/03/2014

वैयक्तिक नं०	नाम	आर्म	मूल रैंक की तिथि
आई सी 57727	एम महाजन	इन्फैन्ट्री	15/12/2014 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013
आई सी 58166	गगनदीप सिंह	गार्ड्स	12/12/2013 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 04/03/2013

नवीन कुमार
उप निदेशक
एम एस 8ए

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

सं. 199, दिनांक 19 अगस्त 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हैं —

ले. कर्नल (समयमान) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ले० कर्नल ललिताबिका एल	एन आर-18764 एफ	14 सितम्बर 2015
ले० कर्नल सुषमा कुमारी वी	एन आर-18892 वाई	25 जनवरी 2016
ले० कर्नल लिजीअम्मा अब्राहम	एन आर-18891 डब्ल्यू	25 जनवरी 2016
ले० कर्नल एलिअम्मा सी एम	एन आर-18792 एन	14 सितम्बर 2015
ले० कर्नल ट्रीसा सूजी पाल	एन आर-18838 एल	18 जनवरी 2015
ले० कर्नल अन्जला मारिया सी ए	एन आर-18854 एच	18 जनवरी 2015
ले० कर्नल सूजा एम के	एन आर-18860 डब्ल्यू	18 जनवरी 2015
ले० कर्नल श्यामला टी डी	एन आर-18895 एम	25 जनवरी 2015
ले० कर्नल सुसीला राणे	एन आर-18769 ए	14 सितम्बर 2015
ले० कर्नल एल्सी जार्ज	एन आर-18876 एफ	25 जनवरी 2016
ले० कर्नल लिजी के साइमन	एन आर-18896 पी	25 जनवरी 2016

कैप्टन से मेजर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर नवीना डबास	एन आर-21750 एम	19 अगस्त 2015
मेजर अंजना कुमेरी	एन आर-21751 पी	19 अगस्त 2015
मेजर नुपुर सचदेवा	एन आर-21752 एक्स	19 अगस्त 2015
मेजर निशा सिंह	एन आर-21753 ए	19 अगस्त 2015
मेजर तनुश्री मित्रा	एन आर-21754 एच	19 अगस्त 2015
मेजर बी रौशनी	एन आर-21755 एल	19 अगस्त 2015
मेजर अनु जकारिया	एन आर-21756 एन	19 अगस्त 2015
मेजर राधिका दास	एन आर-21757 डब्ल्यू	19 अगस्त 2015
मेजर श्वेता दहिया	एन आर-21758 वाई	19 अगस्त 2015
मेजर कृष्णा बिष्ट	एन आर-21759 एफ	19 अगस्त 2015
मेजर कविता रजवार	एन आर-21760 डब्ल्यू	19 अगस्त 2015
मेजर अस्वथी विजेयन	एन आर-21761 वाई	19 अगस्त 2015

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर त्रिन्दा पी	एन आर-21762 एफ	19 अगस्त 2015
मेजर दीपिका शेखावत	एन आर-21763 के	19 अगस्त 2015
मेजर जी गीतु	एन आर-21764 एम	19 अगस्त 2015
मेजर लिली सामन्ता	एन आर-21765 पी	19 अगस्त 2015
मेजर संगीता फिलिप	एन आर-21766 एक्स	19 अगस्त 2015
मेजर ज्योति साहा	एन आर-21767 ए	19 अगस्त 2015
मेजर अंजु सुदर्शन	एन आर-21768 एच	19 अगस्त 2015
मेजर रंजिनी जी कृष्णन	एन आर-21769 एल	19 अगस्त 2015
मेजर अर्पिता चक्रवर्ती	एन आर-21770 ए	19 अगस्त 2015
मेजर हिमा जॉन	एन आर-21771 एच	19 अगस्त 2015
मेजर तुंगनंग सी	एन आर-21772 एल	19 अगस्त 2015
मेजर सुमन रावत	एन आर-21773 एन	19 अगस्त 2015
मेजर स्नेहा यादव	एन आर-21774 डब्ल्यू	19 अगस्त 2015
मेजर प्रियमवदा जे	एन आर-21775 वाई	19 अगस्त 2015
मेजर रिहाना दास	एन एस-21677 वाई	23 अगस्त 2015
मेजर सुषमा कुमारी	एन एस-21678 एफ	23 अगस्त 2015
मेजर पूजा गौतम	एन एस-21681 एफ	23 अगस्त 2015
मेजर अस्वथी चन्द्रन	एन एस-21682 के	23 अगस्त 2015
मेजर अनूपा देवी कैरी	एन एस-21684 पी	23 अगस्त 2015
मेजर मेघा रावत	एन एस-21686 ए	23 अगस्त 2015
मेजर नमनीत कौर	एन एस-21687 एच	23 अगस्त 2015
मेजर कमलेश मलकानी	एन एस-21688 एल	23 अगस्त 2015
मेजर आर्या एस राजन	एन एस-21689 एन	23 अगस्त 2015
मेजर स्वीटी कुमारी	एन एस-21692 एन	23 अगस्त 2015
मेजर अमनिन्दर कौर	एन एस-21694 वाई	23 अगस्त 2015
मेजर अमेघा सी वी	एन एस-21697 एम	23 अगस्त 2015
मेजर हँसी पाठक	एन एस-21698 पी	23 अगस्त 2015
मेजर नीतू राठौर	एन आर-21642 एच	23 अगस्त 2015
मेजर देवी प्रिय	एन आर-21643 एल	23 अगस्त 2015
मेजर दिव्य शर्मा	एन आर-21644 एन	23 अगस्त 2015
मेजर मीनाक्षी जाँगडा	एन आर-21645 डब्ल्यू	23 अगस्त 2015
मेजर बिन्सी कुरियाकोस	एन आर-21646 वाई	23 अगस्त 2015
मेजर शालू चौहान	एन आर-21647 एफ	23 अगस्त 2015

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर बीना एस बाबू	एन आर-21648 के	23 अगस्त 2015
मेजर शशी कला	एन आर-21649 एम	23 अगस्त 2015
मेजर नित्य आर	एन आर-21650 एफ	23 अगस्त 2015
मेजर रीटा रानी सिंह	एन आर-21651 के	23 अगस्त 2015
मेजर मँजू नारायण	एन आर-21652 एम	23 अगस्त 2015
मेजर सीजा चाको	एन आर-21653 पी	23 अगस्त 2015
मेजर ज्योत्सना शुभरा	एन आर-21654 एक्स	23 अगस्त 2015
मेजर सविता पी	एन आर-21655 ए	23 अगस्त 2015
मेजर नीतू जार्ज	एन आर-21657 एल	23 अगस्त 2015
मेजर चैतन्य एस के	एन आर-21658 एन	23 अगस्त 2015
मेजर प्रतिमा कश्यप	एन आर-21659 डब्ल्यू	23 अगस्त 2015
मेजर सुषमा कुमारी	एन आर-21660 एल	23 अगस्त 2015
मेजर सरन्या	एन आर-21661 एन	23 अगस्त 2015
मेजर मानोरश्मि टी एम	एन आर-21662 डब्ल्यू	23 अगस्त 2015
मेजर के सुषमा अहिरवार	एन आर-21663 वाई	23 अगस्त 2015
मेजर रम्या पी	एन आर-21664 एफ	23 अगस्त 2015
मेजर एन्जल रोज	एन आर-21665 के	23 अगस्त 2015
मेजर मीनाक्षी एन	एन आर-21666 एम	23 अगस्त 2015
मेजर अपर्णा सिन्हा	एन आर-21667 पी	23 अगस्त 2015
मेजर ज्योति पंत	एन आर-21668 एक्स	23 अगस्त 2015
मेजर टीना जोन	एन आर-21669 ए	23 अगस्त 2015
मेजर कविता आर कुमार	एन आर-21670 पी	23 अगस्त 2015
मेजर जे मर्लिन इम्माकुलेट	एन आर-21671 एक्स	23 अगस्त 2015
मेजर जयश्री नायर	एन आर-21672 ए	23 अगस्त 2015
मेजर जीवन्तिका पी	एन आर-21673 एच	23 अगस्त 2015
मेजर प्रतिभा तिवारी	एन आर-21674 एल	23 अगस्त 2015
मेजर रीना यादव	एन आर-21675 एन	23 अगस्त 2015
मेजर स्यूली डी सांगमा	एन आर-21676 डब्ल्यू	23 अगस्त 2015
मेजर रिकी सचान	एन आर-21690 एच	23 अगस्त 2015
मेजर संगीता के एम	एन आर-21691 एल	23 अगस्त 2015
मेजर बज्जल रजनी	एन आर-22069 के	23 नवम्बर 2015
मेजर कीर्ति मान	एन आर-21724 एल	24 मार्च 2015
मेजर एम मुषिदाथियन्नमल	एन आर-21735 एक्स	24 मार्च 2015
मेजर अरुणा बिरादर	एन आर-21743 डब्ल्यू	24 मार्च 2015

अल्प सेवा आयोग

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करतें हैं —

ले० से कैप्टन

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन क्रिस्टी जोस	एन एस-23347 वाई	18 नवम्बर 2015
कैप्टन गायत्री सम्पत	एन एस-23349 के	18 नवम्बर 2015
कैप्टन प्रीजी येसुदास	एन एस-23350 वाई	18 नवम्बर 2015
कैप्टन आशा थंकाचन	एन एस-23351 एफ	18 नवम्बर 2015
कैप्टन अंजलि कुरियन सी	एन एस-23352 के	18 नवम्बर 2015
कैप्टन रिकलजीत कौर	एन एस-23353 एम	18 नवम्बर 2015
कैप्टन जसविन्दर कौर	एन एस-23354 पी	18 नवम्बर 2015
कैप्टन गौरी के	एन एस-23283 वाई	05 सितम्बर 2015
कैप्टन टोने पी ल्यूक	एन एस-23284 एफ	05 सितम्बर 2015
कैप्टन परवीन नजरुद्दीन शेख	एन एस-23285 के	05 सितम्बर 2015
कैप्टनरूपाली गोविन्द पवार	एन एस-23286 एम	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सीमरप्रीत कौर मिन्हास	एन एस-23287 पी	05 सितम्बर 2015
कैप्टन मीनू जॉय	एन एस-23288 एक्स	05 सितम्बर 2015
कैप्टन कविता रानी	एन एस-23289 ए	05 सितम्बर 2015
कैप्टन निशा जोस	एन एस-23290 पी	05 सितम्बर 2015
कैप्टन पुष्पांजलि हजारिका	एन एस-23291 एक्स	05 सितम्बर 2015
कैप्टन लजिना सी पी	एन एस-23292 ए	05 सितम्बर 2015
कैप्टन अन्ना शैरी जार्ज	एन एस-23293 एच	05 सितम्बर 2015
कैप्टन रजनी देवी	एन एस-23294 एल	05 सितम्बर 2015
कैप्टन मोदिनी राना	एन एस-23295 एन	05 सितम्बर 2015
कैप्टन रिचा रोशनी वाल्टर	एन एस-23296 डब्ल्यू	05 सितम्बर 2015
कैप्टन विद्या के एच	एन एस-23298 एफ	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सुर्या राज	एन एस-23299 के	05 सितम्बर 2015
कैप्टन किन्दरजीत कौर	एन एस-23300 एन	05 सितम्बर 2015
कैप्टन अबिगैल बिआकजमी राल्ते	एन एस-23302 वाई	05 सितम्बर 2015
कैप्टन लावन्या एन	एन एस-23303 एफ	05 सितम्बर 2015
कैप्टन शिवानी कंवर	एन एस-23304 के	05 सितम्बर 2015
कैप्टन किरन देवी	एन एस-23305 एम	05 सितम्बर 2015

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन जीशा एलिजाबेथ जॉन	एन एस-23307 एक्स	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सारू चौहान	एन एस-23313 एल	05 सितम्बर 2015
कैप्टन मौमीता चक्रवर्ती	एन एस-23314 एन	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सन्दीप कौर	एन एस-23315 डब्ल्यू	05 सितम्बर 2015
कैप्टन अनिता शर्मा	एन एस-23316 वाई	05 सितम्बर 2015
कैप्टन वन्दना विजयन	एन एस-23317 एफ	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सबिता नागुलवान्चा	एन एस-23318 के	05 सितम्बर 2015
कैप्टन एस्थर लाल रूतमई	एन एस-23319 एम	05 सितम्बर 2015
कैप्टन रवम्मा अरुणा तंगीरला	एन एस-23320 एफ	05 सितम्बर 2015
कैप्टन ऐशवर्या श्रीधर	एन एस-23321 के	05 सितम्बर 2015
कैप्टन नवजोत	एन एस-23322 एम	05 सितम्बर 2015
कैप्टन झग देवी	एन एस-23324 एक्स	05 सितम्बर 2015
कैप्टन रमनप्रीत कौर	एन एस-23326 एच	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सौम्या पी एस	एन एस-23327 एल	05 सितम्बर 2015
कैप्टन उषा के फ्रांसिस	एन एस-23328 एन	05 सितम्बर 2015
कैप्टन दीपा त्रिपाठी	एन एस-23329 डब्ल्यू	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सासवती जेना	एन एस-23331 एन	05 सितम्बर 2015
कैप्टन मन्दीप कौर	एन एस-23332 डब्ल्यू	05 सितम्बर 2015
कैप्टन बन्दी झांसी रानी	एन एस-23333 वाई	05 सितम्बर 2015
कैप्टन वनमती पी	एन एस-23335 के	05 सितम्बर 2015
कैप्टन वीना के प्रकाश	एन एस-23336 एम	05 सितम्बर 2015
कैप्टन रजनी यादव	एन एस-23337 पी	05 सितम्बर 2015
कैप्टन नेहा गुप्ता	एन एस-23339 ए	05 सितम्बर 2015
कैप्टन प्रियंका मुवल	एन एस-23340 पी	05 सितम्बर 2015
कैप्टन स्यामा एस नायर	एन एस-23342 ए	05 सितम्बर 2015
कैप्टन जरिपिता स्वर्णलता	एन एस-23343 एच	05 सितम्बर 2015
कैप्टन सोनिया रानी	एन एस-23344 एल	05 सितम्बर 2015
कैप्टन नीतू नेश थियोफिलस	एन एस-23345 एन	05 सितम्बर 2015
कैप्टन चरनजीत कौर	एन एस-23346 डब्ल्यू	05 सितम्बर 2015

सुशीला शाही
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

सेना शाखा

सं. 200, दिनांक 19 अगस्त 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारि को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर के रैंक में

कैप्टन विक्रम सिंह राणा	टीए-42647	(इन्जीनियर टीए)	12 सितम्बर 2013
-------------------------	-----------	-----------------	-----------------

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 201, दिनांक 22 अगस्त 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अनूप सिंह	(सं013694981एच अब जेसी-405456डब्लू)	01 सितम्बर 2015
हवलदार अजीत कुमार	(सं013693935एफ अब जेसी-405462के)	01 दिसम्बर 2015
हवलदार वी पांडी	(सं013694774डब्लू अब जेसी-405471एल)	02 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार कन्हैया लाल बिजारनिया	(सं013694982एल अब जेसी-405467एच)	01 जनवरी 2016
हवलदार श्री गिरेश सिंह	(सं013692194एच अब जेसी-405457वाई)	26 अक्टूबर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार अनिल कुमार	(सं013693350एन अब जेसी-405458एफ)	03 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार कप्तान सिंह	(सं013694632वाई अब जेसी-405475एफ)	30 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार मल्लेस्वारा राव दक्काता	(सं013694750एम अब जेसी-405488वाई)	09 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार अनीलाल पी	(सं013695681एन अब जेसी-405463एम)	25 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार दौलत राम रेवार	(सं013696631पी अब जेसी-405464पी)	25 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार आजाद अली शेख	(सं013697081के अब जेसी-405465एक्स)	25 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार सुखविन्दर सिंह	(सं013698731वाई अब जेसी-405466ए)	25 नवम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जाती है)		

हवलदार वासुदेवाराव सीपाना	(सं015611115एक्स अब जेसी-405468एल)	01 जनवरी 2016
हवलदार मुकेश कुमार	(सं015611464एफ अब जेसी-405469एन)	01 जनवरी 2016
हवलदार प्रशान्ता कुमार गौडा	(सं015611964वाई अब जेसी-405470एच)	01 जनवरी 2016
हवलदार बालमुकन्द शर्मा	(सं015611939ए अब जेसी-405479एक्स)	07 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार देश राज	(सं013695270पी अब जेसी-405460वाई)	01 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार मुकेश कुमार	(सं013695276डब्लू अब जेसी-405461एफ)	01 दिसम्बर 2015
हवलदार संजय सिंह	(सं013695320पी अब जेसी-405478पी)	01 जनवरी 2016
हवलदार राम लाल चौधरी	(सं013694871एन अब जेसी-405477एम)	01 जनवरी 2016
हवलदार ठाकूर कानू भाई फुलाभाई	(सं013695115एन अब जेसी-405459के)	09 दिसम्बर 2015*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार जय प्रकाश यादव	(सं013693788के अब जेसी-405476के)	04 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार बिकाश गोहोँय	(सं013694311एफ अब जेसी-405473डब्लू)	01 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार धर्मेन्द्रा चन्द राजवार	(सं013696860ए अब जेसी-405472एन)	04 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार मूल चन्द	(सं013693954एम अब जेसी- 405474वाई)	20 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार विजयवीर सिंह	(सं013694028एन अब जेसी-405500पी)	25 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार परदीप कुमार	(सं013696172एफ अब जेसी-405506डब्लू)	01 अप्रैल 2016
हवलदार विजेन्द्र पाल मान	(सं013695000ए अब जेसी-405487डब्लू)	28 जनवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार बिजय कुमार सिंह	(सं013695211एच अब जेसी-405496एक्स)	01 मार्च 2016
हवलदार सुबोध कुमार	(सं013695219पी अब जेसी-405505एन)	01 अप्रैल 2016
हवलदार धरमा राम चौधरी	(सं013694836एल अब जेसी-405486एन)	06 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार नेमा राम बडियार	(सं013696500के अब जेसी-405484एच)	05 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार भुवन चन्द्रा	(सं013693029के अब जेसी-405491वाई)	16 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार पवित्रा गोगोई	(सं013693127के अब जेसी-405498एच)	01 अप्रैल 2016
हवलदार यशवंत सिंह	(सं013693630एफ अब जेसी-405503एच)	01 अप्रैल 2016

हवलदार भगत सिंह	(सं013693722एन अब जेसी-405499एल)	01 अप्रैल 2016
हवलदार अमित कुमार उपाध्याय	(सं013697011एल अब जेसी-405485एल)	13 फरवरी 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जनवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार जयराज कुन्थ	(सं013694874एफ अब जेसी-405504एल)	01 अप्रैल 2016
हवलदार सुखवीर सिंह	(सं013692759एच अब जेसी-405495पी)	01 मार्च 2016
हवलदार चंचल सिंह	(सं013693262एक्स अब जेसी-405494एम)	08 मार्च 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार संतोष कुमार सिंह	(सं013694606एक्स अब जेसी-405501एक्स)	16 मार्च 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार सुभाष चन्द्र सक्सेना	(सं013695129एन अब जेसी-405492एफ)	16 मार्च 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार मुरारी लाल	(सं013695203के अब जेसी-405493के)	16 मार्च 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
हवलदार विजय कुमार	(सं013694076एन अब जेसी-405497ए)	27 मार्च 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मार्च 2016 से दी जाती है)		

नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क एस डी) जालम सिंह चौहान	(सं013696492डब्लू अब जेसी-405480एम)	01 फरवरी 2016
हवलदार (क्लर्क एस डी) निरगुले मनोहर लक्ष्मण	(सं013696539डब्लू अब जेसी-405489एफ)	01 मार्च 2016
हवलदार (क्लर्क एस डी) जंगीर सिंह	(सं013696834वाई अब जेसी-405490डब्लू)	01 मार्च 2016
हवलदार (क्लर्क एस डी) आनंद कुमार	(सं013696856एक्स अब जेसी-405502ए)	01 मार्च 2016

राजीव जौहरी
अवर सचिव

आर्मी शाखा

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 202, दिनांक 22 अगस्त 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	सेवा निवृत्त की तारीख
मेजर जनरल सुनीता कपूर	एन आर -15948 पी	31 जुलाई 2015
ब्रि. लुईस डहल	एन आर -16354एम	30 अप्रैल 2015
ब्रि. इ के पद्माकोमलम	एन आर -16390 एक्स	30 नवम्बर 2015
ब्रि. देविका गुरुंग	एन आर -16865 डब्ल्यू	30 अप्रैल 2015
ब्रि. कमलेश सिंह	एन आर -16818 वाई	30 अप्रैल 2015
कर्नल थ्रेसिअम्मा जोसफ	एन आर -16400 डब्ल्यू	31 अक्टूबर 2015
कर्नल शांता दूधल	एन आर -16714 एक्स	31 अक्टूबर 2015
ले. कर्नल अरविन्दर कौर	एन आर -17037 एक्स	31 अगस्त 2015
ले. कर्नल तृप्ता सूरी	एन आर -17218 एच	31 मार्च 2015
ले. कर्नल ए वूरमिला देवी	एन आर -17382 एल	31 जुलाई 2015

ले. कर्नल आर थामिल सेल्वी	एन आर -17469 एम	31 मई 2015
ले. कर्नल अमून्नी एम ए	एन आर -17733 पी	31 मई 2015
ले. कर्नल एन यू सुजाता	एन आर -17859 पी	31 जून 2015
ले. कर्नल एलफोन्सा पी वी	एन आर -18169 एक्स	31 मई 2015
ले. कर्नल अन्सम्मा चेरिअन	एन आर -17138 एल	31 मई 2015
ले. कर्नल राजामनी कुटाला	एन आर -17666 पी	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल एलसम्मा वर्गीस	एन आर -17914 ए	31 अक्टूबर 2015
ले. कर्नल एलिस वी एस	एन आर -17980 एच	31 मई 2015
ले. कर्नल वल्सा कुमारी सी पी	एन आर -18488के	28 फरवरी 2015
ले. कर्नल एलिस टी वी	एन आर -18510 के	31 दिसम्बर 2015
मेजर जनरल टी के भूटिया	एन आर -16269 के	30 सितम्बर 2014
ब्रि. जे ए फर्नांडिस	एन आर -16352 एफ	30 अप्रैल 2014
ब्रि. अन्नम्मा इ टी	एन आर -16851 डब्ल्यू	31 मई 2014
ब्रि. पूनम बानिक	एन आर -16449 एम	31 जुलाई 2014
ब्रि. एस नयन्न	एन आर -16173 एफ	30 सितम्बर 2014
ब्रि. रहेल विल्सन	एन आर -16365 वाई	30 नवम्बर 2014
ब्रि. थ्रेसियम्मा जकारिया	एन आर -16417 के	30 नवम्बर 2014
ब्रि. निर्मल कपिल बाटा	एन आर -16151 एच	31 दिसम्बर 2014
कर्नल डी मैरी फिलोमिन	एन आर -16892 एन	30 अप्रैल 2014
कर्नल ओमना एन आर	एन आर -16658 के	30 नवम्बर 2014
कर्नल सलोमी कुट्टी जोस	एन आर -17158 वाई	30 नवम्बर 2014
ले. कर्नल सी एस पार्वती	एन आर -16691 एफ	31 जनवरी 2014
ले. कर्नल लूसी पी वी	एन आर -18435 एल	31 जनवरी 2014
ले. कर्नल नीलम शर्मा	एन आर -18061 ए	31 मार्च 2014
ले. कर्नल एम पी सुमंगला देवी	एन आर -16895 एन	30 अप्रैल 2014
ले. कर्नल इलीकुट्टी के एस	एन आर -17153 ए	31 मई 2014
ले. कर्नल सरोज महंता	एन आर -17561 एल	30 सितम्बर 2014
ले. कर्नल के परिमला कुमारी	एन आर -18257 एन	31 अक्टूबर 2014
ले. कर्नल नीना माकेन	एन आर -16972 एक्स	31 जुलाई 2015
ले. कर्नल शाशि बाला	एन आर -16990 ए	31 अगस्त 2015
ले. कर्नल लाली पी स्कारिया	एन आर -17164 एम	31 मई 2015
ले. कर्नल टी के ऐलिस	एन आर -17207 डब्ल्यू	31 मई 2015
ले. कर्नल सी सेल्वाकानी	एन आर -17397 एन	31 अक्टूबर 2015
ले. कर्नल सुनीता देरनाल	एन आर -17445 एच	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल टी पी पून्म्मा	एन आर -17468 के	31 जनवरी 2015
ले. कर्नल एस कृष्णावेनी	एन आर -17475 ए	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल मरियम्मा वर्गीस	एन आर -17616 के	31 मई 2015
ले. कर्नल के जे अन्नमा	एन आर -17677 एफ	31 अक्टूबर 2015
ले. कर्नल यमुना एल	एन आर -17681 के	31 मई 2015
ले. कर्नल लिजिअम्मा के ई	एन आर -17688 एन	31 मई 2015
ले. कर्नल सूसम्मा जॉय	एन आर -17726 वाई	30 अप्रैल 2015

ले. कर्नल एस जगदीश्वरी	एन आर —17767 एच	31 मई 2015
ले. कर्नल अन्नम्मा वी ए	एन आर —17957 पी	31 मार्च 2015
ले. कर्नल सुशीला विल्सन	एन आर —17961 एक्स	30 नवम्बर 2015
ले. कर्नल पून्नम्मा ओ एन	एन आर —17975 एक्स	31 मई 2015
ले. कर्नल ए एलबोन्स मेरी	एन आर —18011 पी	31 मार्च 2015
ले. कर्नल वीनस दास	एन आर —18012 एक्स	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल वल्सला कुमारी के	एन आर —18026 एक्स	31 मार्च 2015
ले. कर्नल मैरी कमलम एम	एन आर —18030 ए	31 अक्टूबर 2015
ले. कर्नल कावेरी चौधरी	एन आर —18034 डब्ल्यू	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल के शांता कुमारी	एन आर —18048 डब्ल्यू	31 जनवरी 2015
ले. कर्नल एफ जे रोसालिन	एन आर —18067 एफ	28 फरवरी 2015
ले. कर्नल फ्रांसिस्का के वी	एन आर —18149 के	31 अगस्त 2015
ले. कर्नल एस एल विक्टोरिया	एन आर —18206 एक्स	28 फरवरी 2015
ले. कर्नल वसंता के	एन आर —18263 एफ	31 मई 2015
ले. कर्नल मौली के जे	एन आर —18321 ए	31 जनवरी 2015
ले. कर्नल अजंता देब रॉय	एन आर —18382 एक्स	31 जुलाई 2015
ले. कर्नल रोसम्मा जार्ज	एन आर —18430 एम	30 अप्रैल 2015
ले. कर्नल डी कुसुमा बाई	एन आर —18449 एल	31 जुलाई 2015
ले. कर्नल सोमा भौमिक	एन आर —18553 वाई	31 अक्टूबर 2015
ले. कर्नल महेन्दरी कुमारी	एन आर —18575 एक्स	31 अगस्त 2015
ले. कर्नल उमा प्रधान	एन आर —18588 पी	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल संतोष कुमारी आहुजा	एन आर —18591 पी	30 अप्रैल 2015
ले. कर्नल पाटिल वी के	एन आर —18705 पी	31 जुलाई 2015
ले. कर्नल चिन्नम्मा जे	एन आर —18782 के	30 नवम्बर 2015
ले. कर्नल मधु घोष	एन आर —18819 ए	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल कृष्णा जौली	एन आर —18831 एफ	31 मई 2015
ले. कर्नल साराकुट्टी पी वी	एन आर —18864 एम	31 मई 2015
ले. कर्नल अनिता बंदोपाध्याय	एन आर —18913 के	31 दिसम्बर 2015
ले. कर्नल शांता पी वाय	एन आर —18934 ए	30 नवम्बर 2015
ले. कर्नल ऐली के टी	एन आर —18967 एल	31 मार्च 2015
ले. कर्नल ग्रेसी के एम	एन आर —18969 डब्ल्यू	31 मई 2015
ले. कर्नल रेखा राणा	एन आर —18972 डब्ल्यू	31 मार्च 2015
ले. कर्नल ऐनी पी व	एन आर —18975 के	31 मई 2015
ले. कर्नल चन्द्रिका कुमारी आर	एन आर —18994 पी	30 अप्रैल 2015
ले. कर्नल वाणी सी वी	एन आर —18904 एच	31 जुलाई 2015
ले. कर्नल जी प्रभावती	एन आर —18254 ए	31 जनवरी 2015
ले. कर्नल जसविन्दर कौर	एन आर —17485 के	31 मार्च 2014
ले. कर्नल एस पी के भाटिया	एन आर —18273 एफ	31 मार्च 2014
ले. कर्नल सरबजीत कौर	एन आर —18191 एच	31 मार्च 2014
ले. कर्नल एम श्रीनिवासन रुकमणि	एन आर —17982 एन	30 अप्रैल 2014
ले. कर्नल बी रीमा देवी	एन आर —16715 ए	31 मई 2014
ले. कर्नल शिशुबाला होरो	एन आर —17266 एच	31 मई 2014

ले. कर्नल सुसन जॉन	एन आर -17438 एम	31 मई 2014
ले. कर्नल मरियम्मा पी सी	एन आर -18192 एल	31 मई 2014
ले. कर्नल संतोष जुनेजा	एन आर -17952 डब्ल्यू	30 जून 2014
ले. कर्नल रमा पोद्दर	एन आर -18434 एच	30 जून 2014
ले. कर्नल इन्दरजीत कौर	एन आर -16665 ए	31 जुलाई 2014
ले. कर्नल मैरी स्टेला मुथया	एन आर -17886 वाई	31 जुलाई 2014
ले. कर्नल इन्दिरा कुमारी के	एन आर -18015 एल	31 जुलाई 2014
ले. कर्नल टी जयश्री	एन आर -18587 एम	31 जुलाई 2014
ले. कर्नल शांता भागेवाडी	एन आर -17400 एच	31 जुलाई 2014
ले. कर्नल मन्जु खोसला	एन आर -16946 डब्ल्यू	31 अगस्त 2014
ले. कर्नल मरियम्मा टी पी	एन आर -17687 एल	31 अगस्त 2014
ले. कर्नल शान्ता एम	एन आर -17730 एफ	31 अगस्त 2014
ले. कर्नल पी थॉमस	एन आर -17184 ए	30 सितम्बर 2014
ले. कर्नल अन्नम्मा मैथ्यू	एन आर -17735 ए	30 नवम्बर 2014
ले. कर्नल शान्ता सी एन	एन आर -18912 एफ	30 नवम्बर 2014
ले. कर्नल सी के सुलेखा	एन आर -17236 एल	31 दिसम्बर 2014
ले. कर्नल तारावती यादव	एन आर -18253 के	31 दिसम्बर 2014
ले. कर्नल अनूप शर्मा	एन आर-18108 ए	31 मार्च 2014
ले. कर्नल विगनेश्वरीअम्मा	एन आर-17991 पी	31 अक्टूबर 2014

सुशीला शाही
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

सेना शाखा

सं. 203, दिनांक 23 अगस्त 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 जनवरी 2016 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना स्थायी कमीशन

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
एस एल-04052	कर्नल	एम नवालन	एस एल ए ई
आई सी-40407	कर्नल	अशोक कुमार अग्रवाल	इन्फैन्ट्री
आई सी-40838	कर्नल	बिजयानंद पटनायक	इन्फैन्ट्री
आई सी-40986	कर्नल	पंकज मितल	इन्जीनियर्स
आई सी-41010	कर्नल	शेखर रॉय	इन्फैन्ट्री
आई सी-41074	कर्नल	मनोहर लाल गुप्ता	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-41147	कर्नल	मलय शंकर काला	एएडी
आई सी-41710	कर्नल	जय कुमार सिन्हा	आर्टी
आई सी-41769	कर्नल	संजय कपूर	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-42151	कर्नल	राजीव कुमार त्यागी	सिग्नल्स
आई सी-42955	कर्नल	जरनैल सिंह	एएडी

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-42965	कर्नल	विनीत किशोर	आर्टी
आई सी-43001	कर्नल	राजीव कुमार श्रीवास्तव, एस एम	ईट कोर
आई सी-44685	कर्नल	योगेन्द्र कुमार	सिग्नल्स
आई सी-40409	कर्नल(टी एस)	सतीश वषंतमाधव राव देशपांडे	सिग्नल्स
आई सी-40705	कर्नल(टी एस)	अरुण शर्मा	इन्जीनियर्स
आई सी-41391	कर्नल(टी एस)	जितेन्द्र सिंह ठाकुर	इन्फैन्ट्री
आई सी-41526	कर्नल(टी एस)	मंतोष साहा	इन्जीनियर्स
आई सी-41577	कर्नल(टी एस)	रमेश कुमार छिब्वर	आर्टी
आई सी-41714	कर्नल(टी एस)	संजय कुमार	एएससी
आई सी-42015	कर्नल(टी एस)	क्रिस्टोफर जॉन रेगो	इन्जीनियर्स
आई सी-42050	कर्नल(टी एस)	एम रविन्द्र	इन्फैन्ट्री
आई सी-42195	कर्नल(टी एस)	सनील कुमार जोशी	आर्टी
आई सी-42536	कर्नल(टी एस)	ब्रिजदीप सिंह, एस एम	एसी
आई सी-42671	कर्नल(टी एस)	अमृत पाल सिंह	आर्टी
आई सी-42715	कर्नल(टी एस)	पोर्जे अरुण भीकाजी	इन्जीनियर्स
आई सी-42718	कर्नल(टी एस)	सुदीप कुमार पान्डेय	सिग्नल्स
आई सी-42993	कर्नल(टी एस)	कुंअर विरेन्द्र सिंह थनुआ	एएससी
आई सी-43081	कर्नल(टी एस)	गुरप्रीत सिंह बावा	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-43646	कर्नल(टी एस)	ईश्वर चन्द्र जोशी	इन्जीनियर्स
आई सी-44181	कर्नल(टी एस)	परविन्दर सिंह	एएडी
आई सी-44248	कर्नल(टी एस)	राज सिंह	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-44852	कर्नल(टी एस)	एम एन गोपाल	इन्फैन्ट्री
आई सी-44932	कर्नल(टी एस)	आनंद कुमार सिंह	इन्जीनियर्स
आई सी-44961	कर्नल(टी एस)	शफीक आलम मो.	इन्जीनियर्स
आई सी-45406	कर्नल(टी एस)	प्रवीण मंदोत्रा	एसी
आई सी-45512	कर्नल(टी एस)	कृष्ण चन्द्र उपाध्याय	एएडी
आई सी-45559	कर्नल(टी एस)	निर्मल सिंह	इन्जीनियर्स
आई सी-45574	कर्नल(टी एस)	अभय अरविन्द देशपांडे	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-45592	कर्नल(टी एस)	बीमल राय	एएससी
आई सी-45627	कर्नल(टी एस)	करतार सिंह सिरौही	इन्फैन्ट्री
आई सी-45652	कर्नल(टी एस)	सुमित कुमार दा	इन्जीनियर्स
आई सी-45784	कर्नल(टी एस)	विष्णु दास चंद	इन्फैन्ट्री
आई सी-45988	कर्नल(टी एस)	शिवेन्द्र कुमार शाही	एएससी

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-46082	कर्नल(टी एस)	हरीश चन्द्र सिंह	आर्टी
आई सी-46121	कर्नल(टी एस)	बृजेश कुमार	एओसी
आई सी-47232	कर्नल(टी एस)	देवेन्द्र पाल	ईएमई
आई सी-47383	कर्नल(टी एस)	जगनार सिंह	ईट कोर
आई सी-47877	कर्नल(टी एस)	सुरेश कुमार नारा	इन्फैन्ट्री
आई सी-48453	कर्नल(टी एस)	शिव दर्शन जोशी	इन्जीनियर्स
आई सी-48683	कर्नल(टी एस)	महेन्द्र सिंह अधिकारी	एएससी
आई सी-49411	कर्नल(टी एस)	राजीव कुमार सिंह	ईएमई
एस एल-03988	ले कर्नल	त्रिलोक राम आर्या	एस एल बीएसओ
एस एल-04256	ले कर्नल	राज कुमार सिंह	एस एल (क्यू एम)
एस एल-04459	ले कर्नल	शाम सिंह मन्हास	एस एल (क्यू एम)
एस एल-04569	ले कर्नल	नसीब चंद बशोत्रा	एस एल (आर ओ)
एस एल-05092	ले कर्नल	कृष्ण कुमार झा	एस एल (साईफर)
एस सी-05097	ले कर्नल	बलवंत सिंह	एस एल (साईफर)
आई सी-46000	ले कर्नल	हेमंत कुमार डोगरा	आर्टी
आई सी-49584	ले कर्नल	प्रणव कांति राय	एएससी
आई सी-49612	ले कर्नल	हेम सिंह नागर	एओसी
आई सी-50601	ले कर्नल	मोहम्मद गपफार	एसी
आई सी-51194	ले कर्नल	रामप्रताप नैन	ईट कोर
आई सी-51581	ले कर्नल	राजेन्द्र सिंह, एस सी	आर्टी
आई सी-51596	ले कर्नल	मैथ्यू वी वी	सिग्नल्स
आई सी-51878	ले कर्नल	अरुण कांत त्रिपाठी	आर्टी

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 29 फरवरी 2016 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना स्थायी कमीशन

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
वी-00364	कर्नल	देवी सिंह राठौर	आरवीसी
आई सी-40307	कर्नल	संजीव शेखर, एस सी	इन्जीनियर्स
आई सी-41170	कर्नल	विवेक कुमार पण्डित	इन्फैन्ट्री
आई सी-41545	कर्नल	हरदेव सिंह कंधोला	इन्फैन्ट्री
आई सी-41565	कर्नल	दिलीप बैनर्जी	इन्जीनियर्स
आई सी-41598	कर्नल	एस जगपाल	आर्टी
आई सी-41715	कर्नल	विशीन्दर कुमार बागल	आर्टी
आई सी-41910	कर्नल	सुबीर के शर्मा	ईएमई

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-41973	कर्नल	राजीव लोचन शर्मा, एस एम	इन्फैन्ट्री
आई सी-42430	कर्नल	मनीष सरकार	आर्टी
आई सी-43651	कर्नल	स्वामीनाथन प्रसाद आर	सिग्नल्स
आई सी-45371	कर्नल	धनजय पाल सिंह ददवाल, एस एम	इन्फैन्ट्री
आई सी-48445	कर्नल	गोपाल कृषन पण्डिता	इन्जीनियर्स
आई सी-40603	कर्नल(टी एस)	राज किशोर प्रसाद	आर्टी
आई सी-40893	कर्नल(टी एस)	गणेश प्रसाद	आर्टी
आई सी-41020	कर्नल(टी एस)	राजन कादयान	एएससी
आई सी-41208	कर्नल(टी एस)	उल्हास एस कुलकर्णी	इन्फैन्ट्री
आई सी-41275	कर्नल(टी एस)	रवि कुमार पी जी	आर्टी
आई सी-42678	कर्नल(टी एस)	राम स्वरूप पुरी	इन्जीनियर्स
आई सी-43139	कर्नल(टी एस)	अनिल सिबल	एएडी
आई सी-43639	कर्नल(टी एस)	ओंकार मुर्ति	इन्जीनियर्स
आई सी-43744	कर्नल(टी एस)	भवानी दत्त जोशी	इन्जीनियर्स
आई सी-44367	कर्नल(टी एस)	ग्लेन जॉन डीक्रुज	एओसी
आई सी-44397	कर्नल(टी एस)	अनिल राम	एसी
आई सी-44454	कर्नल(टी एस)	कुलदीप सिंह	इन्जीनियर्स
आई सी-45445	कर्नल(टी एस)	बलिनन्दर मोहन तलवार	एएससी
आई सी-45536	कर्नल(टी एस)	राजीव पान्डेय	एसी
आई सी-45661	कर्नल(टी एस)	जतीन्दर पॉल	इन्फैन्ट्री
आई सी-45742	कर्नल(टी एस)	गौतम कुमार देव	एओसी
आई सी-46130	कर्नल(टी एस)	दिनकर चतुर्वेदी	इन्फैन्ट्री
आई सी-47538	कर्नल(टी एस)	सथीस चन्द्र वर्मा सी आर	सिग्नल्स
आई सी-48869	कर्नल(टी एस)	सुरेन्दर पाल सिंह	ईएमई
आई सी-49232	कर्नल(टी एस)	अशोक गोविन्द जाधव	इन्फैन्ट्री
आई सी-48431	ले कर्नल	सीमन्ता शेखर दास	इन्जीनियर्स
आई सी-49046	कर्नल(टी एस)	अश्वनी कुमार	आर्टी
आई सी-49219	कर्नल(टी एस)	बनवारी लाल दूत, एस एम	जैग
आई सी-49726	ले कर्नल	नवरतन सिंह	इन्जीनियर्स
आई सी-50824	ले कर्नल	आर के शर्मा	ईएमई
एस एल-04146	ले कर्नल	महान सिंह	एस एल (साईफर)
एस एल-04245	ले कर्नल	बसावन्नेप्पा बरगली	एस एल (क्यू एम)
एस एल-04249	ले कर्नल	त्रिवेणी चन्द्र पान्डेय	एस एल (आर ओ)

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
एस एल-04335	ले कर्नल	पवन कुमार जामला	एस एल (क्यू एम)
एस एल-04338	ले कर्नल	नानी गोपाल पात्रा	एस एल (आर ओ)
एस एल-04358	ले कर्नल	मस्तान सिंह जसवाल	एस एल (क्यू एम)
एस एल-04391	ले कर्नल	लोकेश बहादुर सिंह रावल	एस एल (क्यू एम)
एस एल-04500	ले कर्नल	सज्जन कुमार	एस एल (क्यू एम)
एस एल-05081	ले कर्नल	रतन सिंह	एस एल (साईफर)
एस सी-00116	ले कर्नल	सुबा सिंह	इन्जीनियर्स
आई सी-43090	कर्नल(टी एस)	प्रदीप कोछर	आर्टी

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मार्च 2016 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना स्थायी कमीशन

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-41077	कर्नल	दिनेश चौधरी	ईएमई
आई सी-41491	कर्नल	सतपाल अहलावत	इन्जीनियर्स
आई सी-42012	कर्नल	अमीत सक्सेना	इन्जीनियर्स
आई सी-42635	कर्नल	निर्दोष भोला विशेषन	ईट कोर
आई सी-43144	कर्नल	संजय कुमार दत्ता	इन्फैन्ट्री
आई सी-43189	कर्नल	अनुपम कुमार सिन्हा	ईएमई
आई सी-48569	कर्नल	सुभाष चंद राणा	इन्फैन्ट्री
आई सी-40799	कर्नल(टी एस)	वंकी बडौला	इन्फैन्ट्री
आई सी-40945	कर्नल(टी एस)	शक्ति सिंह हुड्डा	इन्फैन्ट्री
आई सी-41038	कर्नल(टी एस)	तहसीन हुसैन	इन्फैन्ट्री
आई सी-41359	कर्नल(टी एस)	कमलेन्द्र दत्त मिश्रा	इन्फैन्ट्री
आई सी-41638	कर्नल(टी एस)	श्याम सुंदर शर्मा	इन्फैन्ट्री
आई सी-41693	कर्नल(टी एस)	हरवीर सिंह	सिग्नल्स
आई सी-42126	कर्नल(टी एस)	दीपक कुमार ससन	आर्टी
आई सी-42248	कर्नल(टी एस)	देवेन्द्र सिंह बिष्ट	ईसी
आई सी-42262	कर्नल(टी एस)	संतोष कुमार मिश्रा	ईसी
आई सी-42537	कर्नल(टी एस)	कन्हैया सिंह फर्टियाल	इन्फैन्ट्री
आई सी-43049	कर्नल(टी एस)	यशपाल बलहरा	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-43103	कर्नल(टी एस)	ललित कपिला	इन्फैन्ट्री
आई सी-44370	कर्नल(टी एस)	प्रभ प्रीत	एओसी
आई सी-44466	कर्नल(टी एस)	राजीव शर्मा	इन्जीनियर्स
आई सी-44531	कर्नल(टी एस)	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	आर्टी

आई सी सं	रैंक	नाम	आर्म
आई सी-44917	कर्नल(टी एस)	विद्या सागर	इन्जीनियर्स
आई सी-45128	कर्नल(टी एस)	योगेश गुरुंग	इन्फैन्ट्री
आई सी-45352	कर्नल(टी एस)	राजीव सचन	जैग
आई सी-45502	कर्नल(टी एस)	परमजीत सिंह ग्रेवाल	एएससी
आई सी-45510	कर्नल(टी एस)	संजय मेहता	आर्टी
आई सी-45515	कर्नल(टी एस)	प्रदीप कुमार सिंह	आर्टी
आई सी-45744	कर्नल(टी एस)	विनय कुमार वर्मा	सिग्नल्स
आई सी-45954	कर्नल(टी एस)	राजेश कुमार चौहान	एओसी
आई सी-47229	कर्नल(टी एस)	दलविंदर सिंह	इन्फैन्ट्री
आई सी-48013	कर्नल(टी एस)	राकेश भंगालिया	इन्जीनियर्स
आई सी-48032	कर्नल(टी एस)	विजय कुमार दूबे	इन्जीनियर्स
आई सी-48911	कर्नल(टी एस)	पार्थसारथी आर	इन्जीनियर्स
वी-00382	कर्नल(टी एस)	ललित कुमार यादव	आरवीसी
आई सी-42617	ले कर्नल	सन्नी बक्शी	एएससी
आई सी-47438	ले कर्नल	कृष्ण कुमार सिंह	मेक इन्फैन्ट्री
आई सी-50872	ले कर्नल	विन्सेंट डिसूजा	इन्फैन्ट्री
आई सी-51546	ले कर्नल	पी कांडाशमी	आर्टी
आई सी-51575	ले कर्नल	जगदेव सिंह	एएससी
आई सी-51593	ले कर्नल	बलवान सिंह	एएससी
एस एल-04044	ले कर्नल	जगदीश सिंह यादव	एस एल (आर ओ)
एस एल-04236	ले कर्नल	थॉमस पी एस	एस एल (साईफर)
एस एल-04355	ले कर्नल	के रामा सुब्बु	एस एल (क्यू एम)
एस एल-05101	ले कर्नल	रामदेव सिंह सेंगर	एस एल (टीईओ/आर्टी)
एस एल-05106	ले कर्नल	मोहम्मद सलीम	एस एल (ए ओ)
एस सी-00243	ले कर्नल	पद्मनाभन सी	सिग्नल्स

प्रकाश कुमार चौधरी
उप निदेशक
एम एस-7ए

सेना शाखा

सं. 204, दिनांक 23 अगस्त 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना सेवानिवृत्ती

लै0 कर्नल राजेश यादव

(टीए-42365)

(इन्फैन्ट्री)

31जनवरी 2016

लै0 कर्नल ब्रह्म प्रकाश

टीए(एम)-1172

(ए०एम० सी० टीए)

31दिसम्बर 2015 (अप०)

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 205, दिनांक 24 अगस्त 2016—महामहिम राष्ट्रपति सहर्ष रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र भाग-I/खण्ड-4 दिनांक 09 जनवरी 2016 में सेना सचिव शाखा के “नियमित सेना, स्थायी कमिशन, ब्रिगेडियर के मूल रैंक में” शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन करता है:—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

के लिए

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
11	आई सी-44060 ब्रिग. अनिल गौतम, ए ए डी	26.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.01.12 से दी जायेगी।

पढ़ें

क्रम संख्या	आई सी, रैंक, नाम व आर्म	ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
11	आई सी-44060 ब्रिग. अनिल गौतम, ए ए डी	20.06.14 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03.01.12 से दी जायेगी।

देबाशिस प्रधान
उप निदेशक एम एस (एक्स)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, 10th September 2016

D(MS) SECTION

No. 193, dated 16th August 2016—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 June 2016 :—

PRINCIPAL HONORARY NAVAL ADC

Admiral Sunil Lamba, PVSM, AVSM, ADC (01823T)

The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 June 2016 :—

HONORARY NAVAL ADC

Vice Admiral Girish Luthra, AVSM, VSM 02011W)

Vice Admiral HCS Bisht, AVSM (02035Z)

REVATI RAMAN
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 194, Dated 16 August 2016—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individual as temporary Scientist 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against his name in the Pay Scale of Rs. 15600—39100(Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5400/- :-

PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
2012AB1077	Shri Gugulothu Gautham Raj	RCI, Hyderabad	09.07.2012
2013AB1049	Shri Brijesh Patel	DRDL, Hyderabad	05.08.2013
2014AB1041	Ms. Daisy Priya Tigga	DMRL, Hyderabad	01.08.2014
2015AB1088	Shri Pushpendra Singh Baghel	HQ_SPIC, New Delhi	07.05.2015

RAJEEV RANJAN
Addl. Director/Pers(DRDS-II)

No. 195, dated 17 August 2016—The President is pleased to grant Permanent Commission to under mentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 01 MAR 2015.

REGULAR ARMY

MILITARY NURSING SERVICES

(PERMANENT COMMISSION)

TO BE LT ON PROBATION

RANK	NAME	PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	AKSHAYA JOY	NR	23828L	10/03/1993
LT	PRIYANKA RANI	NR	23829N	16/03/1992

RANK	NAME	PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	RINCY MARIAM RAJ	NR	23830M	01/02/1993
LT	ANN MARY CHINCHU K TOM	NR	23831L	30 /01/1994
LT	MIDHUNA S THAVARATHU	NR	23832N	05/11/1992
LT	NAYANA S	NR	23833W	28/02/1993
LT	KARAMJEET KAUR	NR	23834Y	13/02/1993
LT	SHILPA S	NR	23835F	15/03/1994
LT	SONIA KUMARI	NR	23836K	15/11/1992
LT	ARCHANA K P	NR	23837M	17/04/1992
LT	ANKITA MEENA	NR	23838P	02/09/1992
LT	SHEEMA THOMAS	NR	23839X	17/02/1994
LT	KUSUM LAMA	NR	23840M	01/06/1992
LT	VEDHIKA A VIJAYAN	NR	23841P	07/01/1994
LT	MONICA NIANGLAMKIM	NR	23842X	21/03/1993
LT	SEEMA SUBBA	NR	23843A	18/04/1992
LT	SREE LEKSHMI AR	NR	23844H	28/05/1993
LT	ISMARNA RAI	NR	23845L	05/12/1992
LT	MONIKA SHARMA	NR	23846N	21/06/1992
LT	SWATI SWAGATIKA SWAN	NR	23847W	31/03/1992
LT	VIDHYA K	NR	23848Y	13/08/1993
LT	BHAGHEERATHI O	NR	23849F	19/11/1992
LT	ANU ELIZABETH ANTONY	NR	23850W	08/05/1993
LT	SWATI RAI	NR	23851Y	08/06/1993
LT	DIVYA S	NR	23852F	30/09/1992
LT	JEFFIN PAUL	NR	23853K	16/10/1991
LT	SARYANYA S	NR	23854M	27/06/1993
LT	SWASTIKA GURUNG	NR	23855P	23/07/1991
LT	SWATHI K P	NR	23856X	09/09/1993
LT	JINU	NR	23857A	14/09/1993
LT	ARUNIMA SURESH S	NR	23858H	25/05/1994
LT	ARACHANA M	NR	23859L	08/11/1990

RANK	NAME	PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	CHAITHNYA S	NR	23860A	26/03/1992
LT	SREEJA K S	NR	23861H	15/05/1993

(SHORT SERVICE COMMISSION)

The President is pleased to grant Short Service Commission to under mentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the terms and conditions of service laid down in AI 17/96 and as amended, with effect from 23 Mar 2015 (Seniority from 23 Mar 2014 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)) :-

TO BE LT ON PROBATION

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	NIHARIKL BEHL	NS	23886P	08/01/1992
LT	PRABHJOT KAUR	NS	23887X	02/02/1992
LT	SARANYA MOHANAN A	NS	23888A	25/12/1985
LT	DEEPTI SHARMA	NS	23889H	18/12/1986
LT	SUMITHA SIBI P J	NS	23890X	26/11/1987
LT	MANEESHA MANOHARAN	NS	23891A	25/05/1988
LT	MADHU TEVATIA	NS	23892H	08/04/1989
LT	SOOSAN JOSEPH	NS	23893L	03/06/1989
LT	TEJASWI P SUDAKE	NS	23894N	28/08/1989
LT	SUMI CHOUDHURY	NS	23895W	13/11/1989
LT	KESIYA ANU KURIAN	NS	23896Y	08/12/1989
LT	KAVITA BHARTI	NS	23897F	02/05/1990
LT	ACHAMMA P BABU	NS	23898K	17/05/1990
LT	SANOOJA MAJEED	NS	23899M	31/05/1990
LT	MINAKASHI DEVI	NS	23900W	01/11/1990
LT	RUPINDER KAUR	NS	23901Y	04/03/1991
LT	NIKHILA RAJ M P	NS	23902F	03/05/1991
LT	YOUME	NS	23903K	04/12/1991
LT	BINCY GEORGE	NS	23905P	25/05/1987
LT	NEELAM	NS	23907A	14/07/1989
LT	BITLIN THOMAS	NS	23908H	07/02/1990
LT	JEENA DANIEL	NS	23909L	30/08/1990
LT	SHILPA CHOUDHARY	NS	23910A	07/01/1991
LT	KARTHIKA K V	NS	23911H	06/02/1991
LT	NISHU U	NS	23912L	23/05/1991
LT	USHA RATHORE	NS	23913N	08/07/1991

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	ANUPRABHA A P	NS	23914W	11/07/1988

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with

AI 17/96 with effect from 01 Mar 2015.

TO BE LT ON PROBATION

RANK AND NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	NIVYA V NAIR	NS	23862L	28/06/1993
LT	PRIYATNA PRADHAN	NS	23863N	02/05/1993
LT	SUSHMA GAUTAM	NS	23864W	05/07/1989
LT	PRERNA BACHHWAN	NS	23865Y	08/07/1992
LT	SELJA JOSEPH	NS	23866F	26/11/1993
LT	ARYA PRAKASH	NS	23867K	27/04/1992
LT	MAMTA BORA	NS	23868M	14/03/1992
LT	NISHA SINGH	NS	23869P	03/12/1987
LT	HARITHA R	NS	23870K	15/12/1993
LT	DEEPIKA S	NS	23871M	14/08/1993
LT	SRUTHY MOHAN	NS	23872P	14/09/1992
LT	STEPHI DILEEP	NS	23873X	06/03/1993
LT	SREEPRIYA S NAIR	NS	23874A	26/09/1992
LT	NISHA BHUJEL	NS	23875H	13/08/1987
LT	SAHNAZ PARVEEN	NS	23876L	03/09/1992
LT	DIMPY DANGI	NS	23877N	01/09/1993
LT	MANISHA BIST	NS	23878W	11/09/1990
LT	RIYA RAJU	NS	23879Y	24/09/1993
LT	ARTI KUMARI	NS	23880N	08/06/1990
LT	SHEULI ROY	NS	23881W	13/01/1989
LT	ANJALPREET KAUR	NS	23882Y	10/12/1992
LT	ATHIRA RAJU	NS	23883F	08/10/1993
LT	MARY LHING NEITHEM	NS	23884K	01/03/1992
LT	ARTI KUMARI	NS	23885M	22/04/1994

The President is pleased to grant Short Service Commission to under mentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the terms and conditions of service laid down in AI 17/96 and as amended,with effect from 24 Aug 2015 (Seniority from 24 Aug 2014 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)) :-

TO BE LT ON PROBATION

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	RESHMA S NAIR	NS	23915 Y	19/02/1992
LT	NEETU DAS	NS	23916F	22/04/1992
LT	RAJALAKSHMI V R	NS	23917K	04/01/1982
LT	SIGY K CHACKO	NS	23918M	27/02/1987
LT	RAHISHA	NS	23919P	05/05/1987
LT	ANJU RANI	NS	23920K	21/10/1986

The President is pleased to grant Short Service Commission to under mentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the terms and conditions of service laid down in AI 17/96 and as amended,with effect from 23 Mar 2015 (Seniority from 23 Mar 2013 for promotion and pay fixation being MSc (Nursing)) :-

TO BE LT ON PROBATION

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	VIJI P V	NS	23904M	02/03/1986
LT	SARASWATHI C	NS	23906X	23/06/1988

The President is pleased to grant Short Service Commission to under mentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (SSC) under the terms and conditions of service laid down in AI 17/96 and as amended,with effect from 15 Nov 2014 (Seniority from 15 Nov 2013 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)) :-

TO BE LT ON PROBATION

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	JYOTI	NS	23513F	15-07-1991
LT	SWATI KAUSHIK	NS	23514K	26-05-1991
LT	SUNIMOLE S	NS	23515M	17-09-1980
LT	SWAPANA CHIMIZH S	NS	23518A	07-04-1981
LT	ASWATHY P NAIR	NS	23519H	16-06-1990
LT	AMRITA	NS	23521A	17-10-1989
LT	APARNA M	NS	23522H	24-10-1989
LT	SUMMY SAGAR	NS	23525W	01-08-1991
LT	EVELIN KURIAN	NS	23527F	25-01-1988
LT	SANGEETA MALIK	NS	23528K	26-06-1990
LT	TEENU	NS	23529M	12-09-1990
LT	JAGDEEP KAUR	NS	23530F	27-12-1992
LT	RAMYA SRUTHI CHILAKA	NS	23531K	30-05-1987
LT	DIPAMANI BARMAN	NS	23532M	01-01-1988

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	JYOTI	NS	23534X	01-08-1990
LT	SONAL	NS	23535A	07-06-1991
LT	MANJEET KANWAR	NS	23536H	11-01-1992
LT	SATYA SINGH PATEL	NS	23537L	23-02-1992
LT	RUMA RANEE DUTTA	NS	23539W	11-08-1987
LT	SOUMYA GS KRISHNAN	NS	23540L	12-01-1989
LT	DEEPTI GUPTA	NS	23541N	25-09-1989
LT	SURBHI	NS	23542W	15-10-1990
LT	JASMAIL KAUR	NS	23543Y	22-08-1991
LT	M NAZIMBANU	NS	23544F	26-04-1983
LT	NANCY KUMARI	NS	23546M	29-08-1988
LT	ISWARIYALAKSHMI L	NS	23547P	03-05-1991
LT	ANAGHA AR	NS	23549A	18-05-1989
LT	MEERABAI K	NS	23550-P	04-09-1989
LT	NEHA SHARMA	NS	23551X	29-12-1989
LT	PRIYANK A	NS	23552A	01-08-1990
LT	SWEETY SHARMA	NS	23553H	14-08-1990
LT	SWARNAKANTI PANDA	NS	23554L	10-05-1980
LT	SULOCHANA KULDEEP	NS	23557Y	18-10-1987
LT	R SARANYA	NS	23558F	30-04-1988
LT	MEEENAKSHI	NS	23560Y	05-01-1990
LT	ARCHANA V KAIMAL	NS	23561F	19-02-1990
LT	MINAL BHATIA	NS	23562K	19-04-1990
LT	PRETTY THOMAS	NS	23563M	15-06-1990
LT	DEEPAM KUMARI CHAUHAN	NS	23564P	20-08-1990
LT	KANTI SREE VINNAKOTA	NS	23565X	27-03-1991
LT	RAMANPREET KAUR	NS	23566A	19-02-1992
LT	RINA KUMARI	NS	23567H	01-07-1989
LT	PRIYANKA	NS	23568L	08-09-1989
LT	DIVYA NEGI	NS	23569N	27-01-1990
LT	SARANYA S	NS	23570H	09-04-1990
LT	BIBY THOMAS	NS	23571L	01-02-1991
LT	RADHIKA A	NS	23572N	29-07-1991

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	KONTHOUJAM BIDYAKUMARI DEVI	NS	23575F	02-02-1989
LT	DEEPALI SHARMA	NS	23576K	09-07-1990
LT	ELSA JOSE	NS	23577M	01-12-1990
LT	SHIVANI	NS	23578P	03-08-1991
LT	LINCY THOMAS	NS	23580M	23-05-1983
LT	NEELAM KUMARI	NS	23582X	07-09-1986
LT	REMYA RAJ M	NS	23584H	18-05-1987
LT	RAMANDEEP KOUR	NS	23585L	06-04-1988
LT	SHIJIN ANTONY	NS	23586N	10-08-1988
LT	JAYASHREE BISWAS	NS	23588Y	30-03-1989
LT	ABHA SINGH	NS	23590W	25-07-1989
LT	DURBASHA DEVI	NS	23591Y	10-04-1990
LT	VIDYA PM	NS	23592F	17-01-1991
LT	SARITA	NS	23593K	21-01-1991
LT	ANITA KUMARI MAURYA	NS	23594M	04-06-1991
LT	AMANDEEP KAUR	NS	23595P	04-12-1992
LT	AMITA KUMARI	NS	23596X	10-08-1987
LT	ASWATHY VIJAY	NS	23597A	17-04-1988
LT	G SIMI	NS	23598H	20-03-1989
LT	HARMANJIT KAUR	NS	23599L	28-02-1990
LT	THERES MILIN JOSE	NS	23600P	09-06-1990
LT	CIYA JOY K	NS	23601X	10-08-1990
LT	DIVYA PAUL	NS	23602A	20-11-1990
LT	RAMANDEEP KAUR	NS	23603H	13-08-1991
LT	CHANDA PATEL	NS	23604L	10-05-1992
LT	RINGIN DREMA SHARJO	NS	23606W	12-01-1985
LT	JASEENA V	NS	23608F	13-12-1986
LT	INDUSHA M	NS	23609K	13-06-1987
LT	VARSHA PATIL	NS	23610Y	18-08-1987
LT	JILSY THOMAS	NS	23611F	13-05-1988
LT	ANUPAMA MANDAL	NS	23612K	14-08-1988
LT	ANITA NEHRA	NS	23613M	07-07-1989
LT	SUMAN LATA	NS	23614P	10-07-1989

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	SRUTHI RAVEENDRAN P	NS	23615X	22-01-1990
LT	NAMITA V SHETTY	NS	23616A	19-06-1990
LT	ASWATHY AYYAPPAN S	NS	23617H	04-09-1990
LT	MAMTA KUMARI BHANDARI	NS	23618L	04-01-1991
LT	SONIJA MARY ANTONY	NS	23619N	02-03-1991
LT	JYOTSNA KASHYAP	NS	23620H	07-07-1991
LT	SAVITA	NS	23621L	20-09-1991
LT	LIJI PM	NS	23623W	30-05-1986
LT	SNEHA A M	NS	23624Y	13-03-1988
LT	VANDANA THOMAS	NS	23625F	26-09-1989
LT	JISMY SAJU	NS	23626K	19-02-1990
LT	SHERLY ELIZEBETH ALEX	NS	23627M	05-04-1990
LT	JYOTI DEVI	NS	23628P	13-04-1990
LT	BHARTI DEVI	NS	23629X	14-05-1990
LT	VINEETA SHAHI	NS	23630M	16-07-1990
LT	VIJAYA BISHT	NS	23631P	29-09-1990
LT	POULAMI MALICK	NS	23632X	07-11-1990
LT	SWDWMSRI NARZARY	NS	23633A	01-12-1990
LT	RENU	NS	23634H	04-02-1991
LT	SHANI MATHEW	NS	23635L	05-08-1991
LT	SUKHPREET KAUR	NS	23636N	25-08-1991
LT	HARMANDEEP KAUR	NS	23637W	02-09-1991
LT	DOUGHTY JOHNSON	NS	23641Y	17-10-1987
LT	AROCKIA SHALINI G	NS	23642F	29-02-1988
LT	KARMJEET KAUR	NS	23643K	26-08-1988
LT	JOYCY JOY	NS	23644M	16-10-1988
LT	ASWATHI T P	NS	23645P	21-11-1988
LT	AKSHAYA SOMARAJ	NS	23646X	22-05-1989
LT	ANU PHILIP	NS	23647A	03-06-1989
LT	JEENA CHACKO	NS	23648H	02-02-1990
LT	ANUMOL NR	NS	23649L	03-07-1990
LT	P MOUNIKA	NS	23650A	21-08-1990
LT	RESHMA SALIM	NS	23651H	22-10-1990

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	MARIA JOSEPH	NS	23652L	21-11-1990
LT	JYOTI VINUBHAI CHHELADIYA	NS	23653N	11-01-1991
LT	PRIYANKA SHARMA	NS	23654W	02-12-1985
LT	NISHA N	NS	23655Y	12-10-1987
LT	ASWATHY KURIAKOSE	NS	23656F	02-12-1987
LT	CHITHRA M S	NS	23657K	19-11-1988
LT	NEELAM RANA	NS	23658M	14-01-1989
LT	MINU VERMA	NS	23659P	03-09-1989
LT	ROSEMARY PAUL	NS	23660K	06-04-1990
LT	GEETA KAIRA	NS	23661M	19-05-1990
LT	ATHIRA P	NS	23662P	29-05-1990
LT	ADITI GUPTA	NS	23663X	13-06-1990
LT	MEENU	NS	23664A	06-08-1990
LT	ARPITA GHOSH	NS	23665H	12-08-1990
LT	REBECA JOY	NS	23666L	24-10-1990
LT	PARVATHY P	NS	23667N	18-01-1991
LT	RANJUSHA K V	NS	23668W	16-03-1991
LT	LALITA HANS	NS	23669Y	27-09-1991
LT	ANJU MATHEW	NS	23670N	05-01-1992
LT	NEELAM THAKUR	NS	23671W	10-01-1992
LT	LINDA SARA JOHN	NS	23673F	07-05-1985
LT	SUDHA SHARMA	NS	23674K	01-10-1986
LT	PROMI HAZARIKA	NS	23676P	23-08-1988
LT	ERICA SUSAN DANIEL	NS	23677X	20-09-1988
LT	KAMAL PREET KAUR	NS	23678A	15-01-1989
LT	NEETHU T ZACHARIAS	NS	23679H	21-01-1989
LT	GAGANDEEP KAUR	NS	23680X	28-10-1989
LT	POONAM KUMARI	NS	23681A	03-11-1989
LT	SHIMNA MK	NS	23682H	20-12-1989
LT	POOJA RANI	NS	23683L	28-07-1990
LT	URMITA KUMARI	NS	23684N	06-08-1990
LT	ARATHANA P	NS	23685W	03-01-1991
LT	SUDHRITI KUNDU	NS	23686Y	14-03-1991

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	MEENAKSHI RAWAT	NS	23687F	20-06-1991
LT	CHITHRA OR	NS	23688K	10-09-1987
LT	AMAL ANTONY	NS	23691K	18-10-1989
LT	SUMAN CHOUDHARY	NS	23692M	25-10-1989
LT	KULWINDER KAUR	NS	23693P	04-02-1990
LT	SANJU THOMAS	NS	23694X	05-06-1990
LT	PRIYANKA GUPTA	NS	23695A	08-08-1990
LT	SMRITEE RAI	NS	23696H	15-10-1990
LT	MADHU BALA PURI	NS	23697L	17-10-1990
LT	RADHA	NS	23698N	22-11-1990
LT	KIRAN YADAV	NS	23699W	31-12-1990
LT	ATHIRA M R	NS	23700A	09-05-1991
LT	CHITRA TAMANG	NS	23701H	16-11-1991
LT	JYOTI KUMARI	NS	23702L	21-01-1992
LT	ROSHNI ABRAHAM	NS	23703N	03-04-1992
LT	JEENA GREGORY	NS	23704W	15-05-1985
LT	SURUCHI KATYAR	NS	23705Y	27-05-1985
LT	ANJU PARVATHY DAS	NS	23706F	27-10-1986
LT	ROHITHA AMUDALA	NS	23707K	02-11-1986
LT	LITTY ANTONY	NS	23708M	08-12-1987
LT	RAJVEER KAUR	NS	23709P	22-08-1988
LT	BALKESH	NS	23710K	05-05-1989
LT	ROZI THAKUR	NS	23711M	19-07-1989
LT	ANJANA SWAMINATHAN	NS	23712P	14-11-1989
LT	KIMNEILHING MERCY HAOKIP	NS	23713X	23-11-1989
LT	DEEPA SOMAN	NS	23714A	02-02-1990
LT	JASMINE JAMES	NS	23715H	26-04-1990
LT	KANCHAN DHIMAN	NS	23716L	31-08-1990
LT	SOBY THOMAS K	NS	23717N	08-11-1990
LT	HARJIT KAUR	NS	23718W	13-12-1990
LT	HELNA K V	NS	23719Y	17-01-1991
LT	MONIKA YADAV	NS	23720N	28-01-1991
LT	VIDYAMOL K K	NS	23721W	01-02-1991

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	RAJDEEP KAUR	NS	23722Y	25-05-1991
LT	EKTA PATIAL	NS	23723F	13-08-1991
LT	REENA RANA	NS	23724K	10-10-1991
LT	NISHA	NS	23725M	18-10-1991
LT	NEETHU SUNNY	NS	23731A	08-07-1988
LT	GEETHU JAMES K J	NS	23732H	11-09-1989
LT	ANJUMOL A R	NS	23733L	22-11-1989
LT	ANITA KUMARI	NS	23734N	23-08-1990
LT	NEHA SINGH	NS	23735W	20-09-1990
LT	NEETU KUMARI	NS	23736Y	12-02-1991
LT	B SUJITHA	NS	23737F	12-06-1991
LT	SONIYA GOUDA	NS	23738K	07-07-1991
LT	SUVARNA S S	NS	23739M	26-03-1988
LT	ASHA LATHA C H	NS	23740F	07-08-1988
LT	POOJA KUMARI	NS	23741K	08-09-1988
LT	ARCHANA KUMARI	NS	23742M	10-04-1989
LT	SHIJI BS	NS	23743P	06-04-1990
LT	SAJINI V CHEMPOLA	NS	23744X	17-05-1990
LT	SHARMILA DEVI C	NS	23745A	27-05-1990
LT	JOLLY JOHN	NS	23746H	30-06-1990
LT	SUSHILA GURJAR	NS	23747L	03-07-1990
LT	SREESHA RAMESH	NS	23748N	30-08-1990
LT	SARITA	NS	23749W	08-10-1990
LT	NIMMI GEORGE	NS	23750L	06-11-1990
LT	JYOTI KUMARI	NS	23751N	27-10-1991
LT	SAGARIKA SAHU	NS	23752W	10-07-1981
LT	MANJU NINAN	NS	23753Y	27-06-1983
LT	NISHA S	NS	23754F	24-04-1985
LT	SMRUTHI PAUL	NS	23756M	23-12-1987
LT	NEETHU JOSE P	NS	23758X	09-02-1989
LT	AMMU R KURUP	NS	23759A	06-05-1989
LT	NIMMY M J	NS	23760P	01-01-1990
LT	RENJINI P	NS	23761X	14-04-1990

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	MEENU C P	NS	23762A	27-06-1990
LT	LIPIKA KHAN	NS	23763H	01-05-1991
LT	SAHANA ISLAM	NS	23764L	30-06-1991
LT	ASWATHY B NAIR	NS	23765N	29-04-1986
LT	JYOTHI KV	NS	23766W	27-05-1986
LT	JAYASREE MA	NS	23768F	15-08-1986
LT	MILAN THOMAS	NS	23769K	16-05-1987
LT	LAKHWINDER KAUR	NS	23770Y	03-01-1988
LT	RITU RANI	NS	23771F	12-05-1988
LT	SHAHINA BEGUM	NS	23773M	11-07-1988
LT	VAISHALEE KUNDU	NS	23774P	26-04-1989
LT	GM HEMALATHA	NS	23775X	01-01-1990
LT	PRATIMA KUMARI MANDAL	NS	23776A	04-02-1990
LT	PRIYANKA RAWAT	NS	23777H	15-07-1990
LT	SIMI JOHN	NS	23778L	01-10-1990
LT	RAMINDER KAUR DHILLON	NS	23779N	20-02-1991
LT	SONIYA L	NS	23780H	02-08-1991
LT	LINCY JOSEPH	NS	23781L	12-12-1984
LT	ELIZABETH JOSEPH	NS	23782N	14-05-1986
LT	BASANTI KUJUR	NS	23783W	23-10-1986
LT	IBTHISAM M	NS	23784Y	25-08-1987
LT	VANDANA KAUSHIK	NS	23785F	05-05-1988
LT	POOJA SHISHODIYA	NS	23787M	01-01-1989
LT	SHINI ISSAC	NS	23788P	15-02-1989
LT	G DURGA PRASANNA	NS	23789X	19-04-1989
LT	AMALA MARIA RAJAN	NS	23790M	10-05-1989
LT	NIMIL THOMAS	NS	23791P	28-12-1989
LT	SUNILA K V	NS	23793A	15-06-1990
LT	DALMIYA GEORGE	NS	23794H	30-07-1990
LT	NAVPREET KAUR GREWAL	NS	23795L	26-03-1991
LT	RICHA SHARMA	NS	23796N	09-04-1991
LT	BALWINDER KAUR	NS	23797W	19-05-1991

RANK & NAME		PERS NO.		DATE OF BIRTH
LT	REMYA R	NS	23798Y	30-05-1991
LT	AMANPREET KAUR	NS	23799F	17-09-1991
LT	SONALI SHANKAR BORHADE	NS	23800L	02-04-1983
LT	SURUCHI KUMARI	NS	23801N	10-08-1983
LT	RENJU RI	NS	23802W	16-05-1984
LT	MEREEN THOMAS	NS	23806M	09-05-1990
LT	LITTYMOL KURIYAN	NS	23807P	01-10-1990
LT	TANUSHREE SARKAR	NS	23808X	01-01-1991
LT	M VEENA	NS	23809A	11-08-1991
LT	ARATHY MANOHAR	NS	23810P	24-10-1991
LT	SAKSHEE	NS	23811X	19-11-1991
LT	RADHIKA	NS	23812A	09-03-1992
LT	SOUMY GEORGE	NS	23813H	19-01-1985
LT	DAHLIA JOHN	NS	23815N	27-10-1985
LT	AJINA J	NS	23816W	28-05-1986
LT	SMRITIKA SHIBA DAS	NS	23817Y	11-04-1987
LT	LINJU L	NS	23818F	11-05-1987
LT	NISHA BENIWAL	NS	23820Y	12-05-1987
LT	BABLI KADIYAN	NS	23821F	22-07-1989
LT	GURPREET KAUR	NS	23822K	26-07-1989
LT	RICHA THAKUR	NS	23823M	28-06-1990
LT	SHOBHA KAUSHAL	NS	23824P	22-11-1990
LT	VITHUMOL VIJAYAKUMAR	NS	23825X	01-04-1991
LT	SHELLY	NS	23826A	21-05-1991
LT	NAVNEET KAUR	NS	23827H	26-12-1991

SUSHILA SHAHI
Maj Gen
Addl DGMNS

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 196, Dated 17th August 2016—The President is pleased to make substantive promotions of Major General to the following officers :-

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBS MAJ GEN
IC-40097	A/MAJ GEN	RAJAN KOCHHAR	AOC	05.10.15 with seniority from 20.10.11 without effect on pay and pension.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
TO BE SUBSTANTIVE MAJ GEN

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O. SUBS MAJ GEN
IC-40363	MAJ GEN	NJ GEORGE	GARH RIF	18.11.15 with seniority from 05.06.12 without effect on pay and pension.
IC-40714	MAJ GEN	BG GILGANCHI	SIGS	30.11.15 with seniority from 12.06.12 without effect on pay and pension.
IC-40727	MAJ GEN	RK CHAUDHARY	SIGS	30.11.15 with seniority from 13.06.12 without effect on pay and pension.
IC-40736	MAJ GEN	MK MUKHERJEE	ARTY	30.10.15 with seniority from 13.06.12 without effect on pay and pension.
IC-40801	MAJ GEN	RK BANSIWAL	INT	19.11.15 with seniority from 15.06.12 without effect on pay and pension.
IC-40804	MAJ GEN	DV SETIA, VSM	ENGRS	01.11.15 with seniority from 15.06.12 without effect on pay and pension.
IC-40948	MAJ GEN	KR PRASAD	ARTY	23.11.15 with seniority from 16.06.12 without effect on pay and pension.

TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-45468	A/BRIG	N JOSHI	AOC	01.02.16	01.02.16 with seniority from 25.10.10 without effect on pay and pension.
IC-44036	A/BRIG	ATUL RAWAT	MECH INF	04.09.15	04.09.15 with seniority from 23.06.11 without effect on pay and pension.
IC-48879	A/BRIG	R KAPOOR	ENGRS	01.05.15	01.05.15 with seniority from 24.01.12 without effect on pay and pension.
IC-48897	A/BRIG	DN BHATT	ENGRS	01.07.15	01.07.15 with seniority from 25.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47011	A/BRIG	VINAYAK SAINI	ENGRS	01.07.15	01.07.15 with seniority from 27.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47034	A/BRIG	DS RAWAT	ENGRS	01.08.15	01.08.15 with seniority from 28.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47041	A/BRIG	SB SINGH	MECH INF	01.04.15	01.04.15 with seniority from 29.01.12 without effect on pay and pension.
IC-47079	A/BRIG	SANJAY SETHI	AOC	12.06.15	12.06.15 with seniority from 01.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47096	A/BRIG	SK VIDYARTHI	ENGRS	01.08.15	01.08.15 with seniority from 01.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47210	A/BRIG	SUNEET MALIK	SIGS	01.05.15	01.05.15 with seniority from 05.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47231	A/BRIG	MANJEET SINGH	SIGS	01.07.15	01.07.15 with seniority from 06.02.12 without effect on pay and pension.
IC-47283	A/BRIG	JS MAHENDRU	SIGS	01.07.15	01.07.15 with seniority from 07.02.12 without effect on pay and pension.

IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
IC-47012	A/BRIG	TS MUNDI	ARMD	06.04.15	01.05.15 with seniority from 09.02.12 without effect on pay and pension.
IC-49367	A/BRIG	GP CHAMOLI	SIGS	01.09.15	01.09.15 with seniority from 11.02.12 without effect on pay and pension.

DEBASIS PRADHAN
Dy Dir MS(X)

ARMY BRANCH

No. 197, dated 18 August 2016—The President is pleased to make the following promotion: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cmde (& equivalent) to be Surg R Adm (& equivalent)

B Chakravarty (MR-05228A)(76309-B)	-	13-07-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-07-15.
---------------------------------------	---	--

Surg Capt (& equivalent) to be Surg Cmde (& equivalent)

R Ray, VSM (MR-06211Y)(75428-A)	-	12-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-11-15.
------------------------------------	---	--

Col (& equivalent) to be Brig (& equivalent)

K Satyanand, SM (MR-05050P)	-	22-09-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 13-07-15.
TK Sahoo (MR-05790K)	-	05-10-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 17-09-15.

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

G Himashree (MR-05527Y)	-	01-06-2009
----------------------------	---	------------

Gazette Notification regarding grant of promotion for Colonel published in Gazette of India on 20 Jun 2015 in respect of above mentioned officer is hereby cancelled.

Surg Cdr (& equivalent) to be Surg Capt (& equivalent)

HBS Chaudhry (MR-06545N)(75563-H)	-	16-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-01-15.
Sanjeev Kumar (MR-07212N)(75599-R)	-	13-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 04-02-15.
RK Patel (MR-06729M)(75584-F)	-	20-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 05-02-15.
R Sivashankar (MR-06730F)(75585-H)	-	01-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-02-15.
S Chawla (MR-06731K)(75586-K)	-	01-03-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 07-02-15.
P Gokulakrishnan (MR-06815X)(75602-Y)	-	01-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 21-07-15.

B Vikas (MR-07447A)(75621-R)	-	25-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 06-08-15.
GK Shreeram (MR-07494X)(75622-T)	-	08-10-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-15.
R Yadav (MR-06858M)(75911-Z)	-	01-12-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-10-15.

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

Tone Jose (MR-07307N)	-	02-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-14.
KK Ashta (MR-07665Y)	-	09-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-14.
MS Sivakumar (MR-07232F)	-	01-09-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-14.
D Sharma (MR-07332M)	-	07-09-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-14.
MK Jain (MR-07211L)	-	15-09-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-14.
SS Roy (MR-07392F)	-	22-09-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 09-10-14.
Vivek Gupta (MR-07444M)	-	25-09-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 10-10-14.
HS Padmini (MR-07442F)	-	13-10-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 18-10-14.
N Ranganath (MR-07393K)	-	14-10-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 24-10-14.
KK Sharma (MR-07331K)	-	16-10-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 25-10-14.
SK Gupta (MR-07510K)	-	02-11-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-11-14.
VS Kanyal (MR-07495A)	-	30-11-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 03-11-14.
RK Srivastava (MR-07371L)	-	01-12-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-14.
B Basu (MR-07394M)	-	16-12-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-12-14.
Aradhana Sood (MR-06738N)	-	04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 30-12-14.
Rakhee K Goyal (MR-06744F)	-	04-01-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-01-15.
S Sinha (MR-06635P)	-	17-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-03-14.

Rajiv Kumar (MR-06639L)	-	01-05-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-03-14.
SK Mishra (MR-07370H)	-	25-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 08-06-14.
Himanshu Dixit (MR-07206A)	-	25-08-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-10-14.

The President is pleased to make the promotion of under mentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names: -

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

MR-07054K (AF-21717-N)	WG CDR	VIVEK JAYASWAL	08 JUL 2015
------------------------	--------	----------------	-------------

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

MR-07376K (AF-21794G)	WG CDR	NEERU SOOD	09 SEP 2015
-----------------------	--------	------------	-------------

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-06261K (75491-W)	SURG CDR	MANIRUL HAQUE	12 DEC 2015
---------------------	----------	---------------	-------------

LT COL TO COL (TIME SCALE)

MR-06264X	LT COL	SANJAY JAISWAL	12 DEC 2015
MR-07213W	LT COL	S TRIPATHY	01 JAN 2016

R K RANYAL
Air Cmde
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 198, Dated 18 August 2016—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

LT COL TO BE SUBSTANTIVE COL (BY SELECTION)

P/No.	NAME	Arms	SUBSTANTIVE RK
IC58167	M MAHALINGAM	AC	10-12-2015 but sen wef 04-03-2013
IC55575	R CHAUDHARY, SM**	INF	30-09-2014 but sen wef 04-03-2013
IC56084	RAJEEV RS, SM	INF	05-05-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58600	D SHARMA	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58604	ABHISHEK D	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58605	D KOTWAL, SM	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58618	P ATRI	INF	14-03-2016 but sen wef 05-03-2014
IC58643	KU KEKRE	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58651	S YADAV	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58667	A MISHRA	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014

P/No.	NAME	Arms	SUBSTANTIVE RK
IC58705	JS ASWAL	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58711	DILPREET SINGH	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58747	MOHIT THAPA	INF	18-10-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58769	DL KUMAR	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58772	SANJAY RAWAT	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58836	N BHAWAR	INF	16-03-2015 but sen wef 05-03-2014
IC58837	D SHARMA, SM	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58845	SAURABH KHANNA	INF	27-10-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58849	PENDSE AJ	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58854	M JHA	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58889	KK SINGH	INF	10-10-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58899	AMIYA TRIPATHY	INF	07-08-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59042	BN NAYAK, SM	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56178	MB SINGH	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56180	B SINGH	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56206	RP SINGH	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56218	B SINGH, MVC	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56248	K SINGH	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56249	SS SURVE	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56267	R THAKUR	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56281	A TRIPATHI	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56286	M KHARE	INF	06-11-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56512	P SORAYAN	INF	15-04-2015 but sen wef 05-03-2014
IC59065	RITESH KATOCH	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59067	HEMANT SP	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59069	MANAV YADAV, SC	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59070	SARFRAZ SINGH	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59072	S SHARMA, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59076	IP SINGH	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59082	HARPINDER SS	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59088	VIJAY KS	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59092	PUSHPINDER SJ	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59097	S SHUJA, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59098	ADITYA SINGH, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59100	SHAILENDER S	INF	28-03-2015 but sen wef 05-03-2014
IC59105	R SAHARAN	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59124	RAHUL MISHRA	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014

P/No.	NAME	Arms	SUBSTANTIVE RK
IC59131	SHROT SINGH	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59138	A JATRANA, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59139	RANDHIR KS	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59141	R RAWAT	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59154	PHANJOUBAM SS	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59159	M PARTHSARTHY	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59168	AS HOODA	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59169	MADHAVAN I	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59175	S GHOSHAL, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59183	SUDHIR CHAMOLI	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59201	NISHANT SANWAL	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59203	RAJIV THOMAS	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59208	B TOMAR	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59240	MAYANK SJ	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59248	JK JOSEPH	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59262	VINAY, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59265	BALBIR SINGH	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59267	TUSHAR M	INF	20-04-2015 but sen wef 05-03-2014
IC59289	M DARSHAN	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59295	S HARIHAR	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59337	BV KUMAR, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59338	NEERAJ	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59357	ARINDAM P	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59364	VIJAY VSD	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59371	MANAS KM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59394	BIRENDRA KR	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59397	R PAL SINGH	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59415	S BHANGRA	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59417	AMIT KUMAR, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59440	DESPANDE VK	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59450	AMULYA PS	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59456	BHARAT SR	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59460	PRASHANT S	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59461	M VAMSI P	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59470	MANOJ AP, SC, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59478	BALBIR JHA	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59491	N THAPA	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59501	Y KUMAR P	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC59503	RS DHINGRA, SM	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014

P/No.	NAME	Arms	SUBSTANTIVE RK
IC59515	SHARAD S	INF	11-12-2014 but sen wef 05-03-2014
IC58701	RKN MANEY, SM	INF	12-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC57909	NAVEEN KUMAR	INF	26-06-2014 but sen wef 05-03-2014
IC55989	A BHANDARI	INF	30-05-2014 but sen wef 05-03-2014
IC56922	AM KULKARNI	AEC	28-06-2014 but sen wef 21-07-2011
IC58565	JAGJIT BASWANA	MF	17-01-2014 but sen wef 04-03-2013
IC55919	SANJAY KUMAR	GUARDS	15-09-2014 but sen wef 05-03-2014
IC-57727	M MAHAJAN	INF	15/12/2014 but sen wef 04/03/2013
IC-58166	GAGANDEEP SINGH	GUARDS	12/12/2013 but sen wef 04/03/2013

NAVIN KUMAR
Dy Director
MS-8A

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

No. 199, dated 19 August 2016—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:-

LT COL (TS) TO LT COL (SELECT)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Lt Col (S) LALITHAMBIKA L	NR-18764F	14 Sep 2015
Lt Col (S) SUSHAMA KUMARI V	NR-18892Y	25 Jan 2016
Lt Col (S) LIZIYAMMA ABRAHAM	NR-18891W	25 Jan 2016
Lt Col (S) ALEYAMMA C M	NR-18792N	14 Sep 2015
Lt Col (S) TRESSA SUJI PAUL	NR-18838L	18 Jan 2015
Lt Col (S) ANJALA MARYA CA	NR-18854H	18 Jan 2015
Lt Col (S) SUJA MK	NR-18860W	18 Jan 2015
Lt Col (S) SYAMALA TD	NR-18895M	25 Jan 2015
Lt Col (S) SUSEELA RANE	NR-18769A	14 Sep 2015
Lt Col (S) ELSY GEORGE	NR-18876F	25 Jan 2016
Lt Col (S) LIZY K SIMON	NR-18896P	25 Jan 2016

CAPT TO MAJ

Rank & Name	Personal Number	Date of Promotion
MAJOR NAVEENA DABAS	NR 21750M	19/08/2015
MAJOR ANJANA KUMERI	NR 21751P	19/08/2015
MAJOR NUPUR SACHDEVA	NR 21752X	19/08/2015
MAJOR NISHA SINGH	NR 21753A	19/08/2015
MAJOR TANUSHREE MITRA	NR 21754H	19/08/2015
MAJOR B ROSHNI	NR 21755L	19/08/2015

Rank & Name		Personal Number		Date of Promotion
MAJOR	ANU ZACHARIA	NR	21756N	19/08/2015
MAJOR	RADHIKA DAS	NR	21757W	19/08/2015
MAJOR	SHWETA DAHIYA	NR	21758Y	19/08/2015
MAJOR	KRISHNA BIST	NR	21759F	19/08/2015
MAJOR	KAVITA RAJWAR	NR	21760W	19/08/2015
MAJOR	ASWATHY VIJAYAN	NR	21761Y	19/08/2015
MAJOR	BRINDA P	NR	21762F	19/08/2015
MAJOR	DEEPIKA SHEKHAWAT	NR	21763K	19/08/2015
MAJOR	G GEETHU	NR	21764M	19/08/2015
MAJOR	LILY SAMANTA	NR	21765P	19/08/2015
MAJOR	SANGEETHA PHILIP	NR	21766X	19/08/2015
MAJOR	JYOTI SAHA	NR	21767A	19/08/2015
MAJOR	ANJU SUDERSAN K	NR	21768H	19/08/2015
MAJOR	RENJINI G KRISHNAN	NR	21769L	19/08/2015
MAJOR	ARPITA CHAKRABORTY	NR	21770A	19/08/2015
MAJOR	HIMA JOHN	NR	21771H	19/08/2015
MAJOR	TUNGNUNG C	NR	21772L	19/08/2015
MAJOR	SUMAN RAWAT	NR	21773N	19/08/2015
MAJOR	SNEH YADAV	NR	21774W	19/08/2015
MAJOR	PRIYAMVADA J	NR	21775Y	19/08/2015
MAJOR	REHANA DAS	NS	21677Y	23/08/2015
MAJOR	SUSHMA KUMARI	NS	21678F	23/08/2015
MAJOR	PUJA GAUTAM	NS	21681F	23/08/2015
MAJOR	ASWATHI CHANDRAN	NS	21682K	23/08/2015
MAJOR	ANUPA DEVI KAIRY	NS	21684P	23/08/2015
MAJOR	MEGHA RAWAT	NS	21686A	23/08/2015
MAJOR	NAMNEET KAUR	NS	21687H	23/08/2015
MAJOR	KAMLESH MALKANI	NS	21688L	23/08/2015
MAJOR	ARYA S RAJAN	NS	21689N	23/08/2015
MAJOR	SWEETY KUMARI	NS	21692N	23/08/2015
MAJOR	AMANINDER KAUR	NS	21694Y	23/08/2015
MAJOR	AMEGHA C V	NS	21697M	23/08/2015
MAJOR	HANSI PATHAK	NS	21698P	23/08/2015

Rank & Name		Personal Number	Date of Promotion
MAJOR	NEETU RATHORE	NR 21642H	23/08/2015
MAJOR	DEVI PRIYA	NR 21643L	23/08/2015
MAJOR	DIVYA SHARMA	NR 21644N	23/08/2015
MAJOR	MEENAKSHI JANGRA	NR 21645W	23/08/2015
MAJOR	BINCY KURIAKOSE	NR 21646Y	23/08/2015
MAJOR	SHALU CHAUHAN	NR 21647F	23/08/2015
MAJOR	BEENA S BABU	NR 21648K	23/08/2015
MAJOR	SHASHI KALA	NR 21649M	23/08/2015
MAJOR	NITHYA R	NR 21650F	23/08/2015
MAJOR	RITA RANI SINGH	NR 21651K	23/08/2015
MAJOR	MANJU NARAYAN	NR 21652M	23/08/2015
MAJOR	SEEJA CHACKO	NR 21653P	23/08/2015
MAJOR	JYOTSNA SHUBHRA	NR 21654X	23/08/2015
MAJOR	SAVITHA P	NR 21655A	23/08/2015
MAJOR	NEETHU GEORGE	NR 21657L	23/08/2015
MAJOR	CHAITHANYA S K	NR 21658N	23/08/2015
MAJOR	PRATIMA KASHYAP	NR 21659W	23/08/2015
MAJOR	SUSHMA KUMARI	NR 21660L	23/08/2015
MAJOR	SARANYA	NR 21661N	23/08/2015
MAJOR	MANORASHMI T M	NR 21662W	23/08/2015
MAJOR	K SUSHMA AHIRWAR	NR 21663Y	23/08/2015
MAJOR	RAMYA P	NR 21664F	23/08/2015
MAJOR	ANGEL ROSE	NR 21665K	23/08/2015
MAJOR	MEENAKSHI N	NR 21666M	23/08/2015
MAJOR	APARNA SINHA	NR 21667P	23/08/2015
MAJOR	JYOTI PANT	NR 21668X	23/08/2015
MAJOR	TEENA JOAN	NR21669A	23/08/2015
MAJOR	KAVITHA R KUMAR	NR 21670P	23/08/2015
MAJOR	J MERLIN IMMACULATE	NR 21671X	23/08/2015
MAJOR	JAISHREE NAIR	NR 21672A	23/08/2015
MAJOR	JEEVANTHIKA P	NR 21673H	23/08/2015
MAJOR	PRATIBHA TIWARI	NR 21674L	23/08/2015
MAJOR	REENA YADAV	NR 21675N	23/08/2015
MAJOR	SEWLI D SANGMA	NR 21676W	23/08/2015
MAJOR	RINKI SACHAN	NR 21690H	23/08/2015
MAJOR	SANGEETHA K M	NR 21691L	23/08/2015

Rank & Name		Personal Number		Date of Promotion
MAJOR	BAJJAL RAJANI	NR	22069 K	23/11/2015
Major	Kirti Maan	NR	21724L	24/03/2015
Major	M Muppidthiammal	NR	21735X	24/03/2015
Major	Aruna Biradar	NR	21743W	24/03/2015

SHORT SERVICE COMMISSION

The President is pleased to make the following promotion in respect of following MNS officer with effect from the date mentioned against the each name:-

LT TO CAPT

Rank & Name	Pers No.	Date of Promotion
CAPT CHRISTY JOSE	NS 23347Y	18/11/2015
CAPT GAYATHRI SAMPATH	NS 23349K	18/11/2015
CAPT PRIJI YESUDAS	NS 23350Y	18/11/2015
CAPT ASHA THANKACHAN	NS 23351F	18/11/2015
CAPT ANJALY KURIAN C	NS 23352K	18/11/2015
CAPT RINKALJET KAUR	NS 23353M	18/11/2015
CAPT JASWINDER KAUR	NS 23354P	18/11/2015
CAPT GOWRI K	NS 23283Y	05/09/2015
CAPT TONO P LUKE	NS 23284F	05/09/2015
CAPT PARV IN NAZIRUDDIN SHAIKH	NS 23285K	05/09/2015
CAPT ROOPALI GOVIND PAWAR	NS 23286M	05/09/2015
CAPT SIMERPREET KAUR MINHAS	NS 23287P	05/09/2015
CAPT MINU JOY	NS 23288X	05/09/2015
CAPT KAVITA RANI	NS 23289A	05/09/2015
CAPT NISHA JOSE	NS 23290P	05/09/2015
CAPT PUSHPANJALI HAZARIKA	NS 23291X	05/09/2015
CAPT LAJINA CP	NS 23292A	05/09/2015
CAPT ANNA SHERI GEORGE	NS 23293H	05/09/2015
CAPT RAJNI DEVI	NS 23294L	05/09/2015
CAPT MODINI RANA	NS 23295N	05/09/2015
CAPT REECHA ROSHANI WALTER	NS 23296W	05/09/2015
CAPT VIDYA KH	NS 23298F	05/09/2015
CAPT SURYA RAJ	NS 23299K	05/09/2015
CAPT KINDERJIT KAUR	NS 23300N	05/09/2015
CAPT ABIGAIL BIAKZAMI RALTE	NS 23302Y	05/09/2015
CAPT LAVANYA N	NS 23303F	05/09/2015
CAPT SHIVANI KANWAR	NS 23304K	05/09/2015
CAPT KIRAN DEVI	NS 23305M	05/09/2015

Rank & Name	Pers No.	Date of Promotion
CAPT JISHA ELIZABETH JOHN	NS 23307X	05/09/2015
CAPT SARU CHAUHAN	NS 23313L	05/09/2015
CAPT MOUMITA CHAKRABORTY	NS 23314N	05/09/2015
CAPT SANDEEP KAUR	NS 23315W	05/09/2015
CAPT ANITA SHARMA	NS 23316Y	05/09/2015
CAPT VANDANA VIJAYAN	NS 23317F	05/09/2015
CAPT SABITHA NAGULAVANCHA	NS 23318K	05/09/2015
CAPT ESTHER LAL RUATMWAI	NS 23319M	05/09/2015
CAPT RAVAMMA ARUNA TANGIRALA	NS 23320F	05/09/2015
CAPT AISWARYA SREEDHAR	NS 23321K	05/09/2015
CAPT NAVJOT	NS 23322M	05/09/2015
CAPT JHAG DEVI	NS 23324X	05/09/2015
CAPT RAMANPREET KAUR	NS 23326H	05/09/2015
CAPT SOUMYA PS	NS 23327L	05/09/2015
CAPT USHAS K FRANCIS	NS 23328N	05/09/2015
CAPT DEEPA TRIPATHI	NS 23329W	05/09/2015
CAPT SASWATI JENA	NS 23331N	05/09/2015
CAPT MANDEEP KAUR	NS 23332W	05/09/2015
CAPT BANDI JHANSI RANI	NS 23333Y	05/09/2015
CAPT VANMATHI P	NS 23335K	05/09/2015
CAPT VEENA K PRAKASH	NS 23336M	05/09/2015
CAPT VRAJNI YADAV	NS 23337P	05/09/2015
CAPT NEHA GUPTA	NS 23339A	05/09/2015
CAPT PRIYANKA MUWAL	NS 23340P	05/09/2015
CAPT SYAMA S NAIR	NS 23342A	05/09/2015
CAPT SONIYA RANI	NS 23344L	05/09/2015
CAPT NEETHU NASH THEOPHILUS	NS 23345N	05/09/2015
CAPT CHARANJIT KAUR	NS 23346W	05/09/2015

SUSHILA SHAHI
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 200, dated 19th August 2016—The President is pleased to make the following promotion: -

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To Be Maj

Capt Vikram Singh Rana	TA-42647	Engineer TA	12 Sep 2013
------------------------	----------	-------------	-------------

M P SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

No . 201, dated 22nd August 2016—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To Be Naib Subedar

Hav	Anoop Singh	13694981H	now	JC-405456W	01 Sep 15
Hav	Ajeet Kumar	13693935F	now	JC-405462K	01 Dec 15
Hav	V Pandi	13694774W	now	JC-405471L	02 Feb 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 07 Sep 2015.					
Hav	Kanhaiya Lal Bijarnia	13694982L	now	JC-405467H	01 Jan 16
Hav	Sri Giresh Singh	13692194H	now	JC-405457Y	26 Oct 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 28 Sep 2015.					
Hav	Anil Kumar	13693350N	now	JC-405458F	03 Nov 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 28 Sep 2015.					
Hav	Kaptan Singh	13694632Y	now	JC-405475F	30 Jan 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 14 Dec 2015.					
Hav	Malleswara Rao Dakkata	13694750M	now	JC-405488Y	09 Feb 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2016.					
Hav	Anilal P	13695681N	now	JC-405463M	25 Nov 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 05 Sep 2015.					
Hav	Dolat Ram Rewar	13696631P	now	JC-405464P	25 Nov 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 05 Sep 2015.					
Hav	Azad Ali Shaikh	13697081K	now	JC-405465X	25 Nov 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 14 Sep 2015.					
Hav	Sukhvinder Singh	13698731Y	now	JC-405466A	25 Nov 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2015.					
Hav	Vasudevarao Seepana	15611115X	now	JC-405468L	01 Jan 16
Hav	Mukesh Kumar	15611464F	now	JC-405469N	01 Jan 16
Hav	Prasanta Kumar Gouda	15611964Y	now	JC-405470H	01 Jan 16
Hav	Balmuknd Sharma	15611939A	now	JC-405479X	07 Jan 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2016.					
Hav	Desh Raj	13695270P	now	JC-405460Y	01 Dec 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2015.					
Hav	Mukesh Kumar	13695276W	now	JC-405461F	01 Dec 15
Hav	Sanjay Singh	13695320P	now	JC-405478P	01 Jan 16
Hav	Ram Lal Choudhary	13694871N	now	JC-405477M	01 Jan 16
Hav	Thakor Kanu Bhai Fulabhai	13695115N	now	JC-405459K	09 Dec 15*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 28 Sep 2015.					
Hav	Jay Prakash Yadav	13693788K	now	JC-405476K	04 Jan 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 15 Dec 2015.					

Hav	Bikash Gohain	13694311F	now	JC-405473W	01 Feb 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Nov 2015.					
Hav	Dharmendra Chand Rajwar	13696860A	now	JC-405472N	04 Jan 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 16 Oct 2015.					
Hav	Mool Chand	13693954M	now	JC-405474Y	20 Jan 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 06 Dec 2015.					
Hav	Vijayvir Singh	13694028N	now	JC-405500P	25 Jan 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2016.					
Hav	Pardeep Kumar	13696172F	now	JC-405506W	01 Apr 16
Hav	Vijender Pal Maan	13695000A	now	JC-405487W	28 Jan 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 04 Jan 2016.					
Hav	Bijay Kumar Singh	13695211H	now	JC-405496X	01 Mar 16
Hav	Subodh Kumar	13695219P	now	JC-405505N	01 Apr 16
Hav	Dharma Ram Chowdhary	13694836L	now	JC-405486N	06 Feb 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 04 Jan 2016.					
Hav	Nema Ram Badiyar	13696500K	now	JC-405484H	05 Feb 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jan 2016.					
Hav	Bhuvan Chandra	13693029K	now	JC-405491Y	16 Feb 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2016.					
Hav	Pabitra Gogoi	13693127K	now	JC-405498H	01 Apr 16
Hav	Yashwant Singh	13693630F	now	JC-405503H	01 Apr 16
Hav	Bhagat Singh	13693722N	now	JC-405499L	01 Apr 16
Hav	Amit Kumar Upadhyay	13697011L	now	JC-405485L	13 Feb 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 03 Jan 2016.					
Hav	Jayaraj Kunnath	13694874F	now	JC-405504L	01 Apr 16
Hav	Sukhveer Singh	13692759H	now	JC-405495P	01 Mar 16
Hav	Chanchal Singh	13693262X	now	JC-405494M	08 Mar 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 21 Feb 2016.					
Hav	Santosh Kumar Singh	13694606X	now	JC-405501X	16 Mar 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Feb 2016.					
Hav	Subhash Chandre Saxena	13695129N	now	JC-405492F	16 Mar 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 16 Feb 2016.					
Hav	Murari Lal	13695203K	now	JC-405493K	16 Mar 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 16 Feb 2016.					
Hav	Vijay Kumar	13694076N	now	JC-405497A	27 Mar 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 16 Mar 2016.					

TO BE NAIB SUBEDAR (CLERK SD)

Hav/(ClkSD)	Jalam Singh Chauhan	13696492W	now	JC-405480M	01 Feb 16
Hav/(ClkSD)	Nirgule Manhor Laxman	13696539W	now	JC-405489F	01 Mar 16

Hav/(ClkSD)	Jangir Singh	13696834Y	now	JC-405490W	01 Mar 16
Hav/(ClkSD)	Anand Kumar	13696856X	now	JC-405502A	01 Mar 16

RAJEEV JAUHARI
Under Secy

No. 202, dated 22nd August 2016—The President is pleased to make the following retirement in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against each name :-

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)
RETIREMENT

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF RETIREMENT
MAJ GEN SUNITA KAPOOR VSM	NR-15948P	31 JUL 2015
BRIG LOUISE DAHAL	NR-16354M	30 APR 2015
BRIG E K PADMAKOMALAM	NR-16390X	30 NOV 2015
BRIG DEVIKA GURUNG	NR-16865W	30 APR 2015
BRIG KAMLESH SINGH	NR-16818Y	30 APR 2015
COL THRESIAMMA JOSEPH	NR-16400W	31 OCT 2015
COL SHANTA DUDHAL	NR-16714X	31 OCT 2015
LT COL(S) ARVINDER KAUR	NR-17037X	31 AUG 2015
LT COL(S) TRIPTA SURI	NR-17218H	31 MAR 2015
LT COL(S) A VOORMILA DEVI	NR-17382L	31 JUL 2015
LT COL(S) R THAMIL SELVI	NR-17469M	31 MAY 201
LT COL(S) AMMUNNI MA	NR-17733P	31 MAY 2015
LT COL(S) NU SUJATHA	NR-17859P	30 JUN 2015
LT COL(S) ALPHONZA PV	NR-18169X	31 MAY 2015
LT COL(S) ANSAMMA CHERIAN	NR-17138L	31 MAY 2015
LT COL(S) RAJAMANI KUTTALA	NR-17666P	31 DEC 2015
LT COL(S) ELSAMMA VARGHESE	NR-17914A	31 OCT 2015
LT COL(S) ALICE VS	NR-17980H	31 MAY 2015
LT COL(S) VALSA KUMARI CP	NR-18488K	28 FEB 2015
LT COL(S) ALICE TV	NR-18510K	31 DEC 2015
MAJ GEN T K BHUTIA	NR-16269 K	30 SEP 2014
BRIG J A FERNANDEZ	NR-16352 F	30 APR 2014
BRIG ANNAMMA E T	NR-16851 W	31 MAY 2014
BRIG POONAM BANIK	NR-16449 M	31 JUL 2014
BRIG S NINAN	NR-16173 F	30 SEP 2014
BRIG RAHEL WILSON	NR-16365 Y	30 NOV 2014
BRIG THRESIAMMA ZACHARIAS	NR-16417 K	30 NOV 2014
BRIG NIRMAL KAPIL BATA	NR-16151 H	31 DEC 2014

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF RETIREMENT
COL D MARY PHILOMIN	NR-16892 N	30 APR 2014
COL OMANA N R	NR-16658 K	30 NOV 2014
COL SALOMI KUTTY JOSE	NR-17158 Y	30 NOV 2014
LT COL(S) C S PARVATHY	NR-16691F	31 JAN 2014
LT COL(S) LUCY P V	NR-18435 L	31 JAN 2014
LT COL(S) NEELAM SHARMA	NR-18061 A	31 MAR 2014
LT COL(S) M P SUMANGALA DEVI	NR-16895 N	30 APR 2014
LT COL(S) EALIKUTTY K S	NR-17153 A	31 MAY 2014
LT COL(S) SAROJ MAHANTA	NR-17561-L	30 SEP 2014
LT COL(S) K PARIMALA KUMARI	NR-18257 N	31 OCT 2014
LT COL NEENA MAKEN	NR-16972X	31 JUL 2015
LT COL SHASHI BALA	NR-16990A	31 AUG 2015
LT COL LALI P SKARIA	NR-17164M	31 MAY 2015
LT COL T K ALICE	NR-17207W	31 MAY 2015
LT COL C SELVAKANI	NR-17397N	31 OCT 2015
LT COL SUNITA DERNAL	NR-17445H	31 DEC 2015
LT COL TP PONNAMMA	NR-17468K	31 JAN 2015
LT COL S KRISHNAVENI	NR-17475A	31 DEC 2015
LT COL MARIAMMA VARGHESE	NR-17616K	31 MAY 2015
LT COL KJ ANNAMMA	NR-17677F	31 OCT 2015
LT COLYAMUNA L	NR-17681K	31 MAY 2015
LT COL LIZIAMMA KE	NR-17688N	31 MAY 2015
LT COL SUSAMMA JOY	NR-17726Y	30 APR 2015
LT COL S JAGADEESWARI	NR-17767H	31 MAY 2015
LT COL ANNAMMA VA	NR-17957P	31 MAR 2015
LT COL SUSHILA WILSON	NR-17961X	30 NOV 2015
LT COL POONNAMMA ON	NR-17975X	31 MAY 2015
LT COL A ALBONSE MARY	NR-18011P	31 MAR 2015
LT COL VENUS DAS	NR-18012X	31 DEC 2015
LT COL VALSALA KUMARI K	NR-18026X	31 MAR 2015
LT COL MARY KAMALAM M	NR-18030A	31 OCT 2015
LT COL KAVERI CHOWDHURY	NR-18034W	31 DEC 2015
LT COL K SANTHA KUMARI	NR-18048W	31 JAN 2015
LT COL F J ROSALINE	NR-18067F	28 FEB 2015
LT COL FRANCISCA K V	NR-18149K	31 AUG 2015
LT COL SL VICTORIA	NR-18206X	28 FEB 2015
LT COL VASANTHA K	NR-18263F	31 MAY 2015

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF RETIREMENT
LT COL MOLLY K J	NR-18321A	31 JAN 2015
LT COL AJANTA DEB ROY	NR-18382X	31 JUL 2015
LT COL ROSAMMA GEORGE	NR-18430M	30 APR 2015
LT COL D KUSUMA BAI	NR-18449L	31 JUL 2015
LT COL SOMA BHOWMIK	NR-18553Y	31 OCT 2015
LT COL MAHENDRI KUMARI	NR-18575X	31 AUG 2015
LT COL UMA PRADHAN	NR-18588P	31 DEC 2015
LT COL SANTOSH KUMARI AHUJA	NR-18591P	30 APR 2015
LT COL PATIL V K	NR-18705P	31 JUL 2015
LT COL CHINNAMMA J	NR-18782K	30 NOV 2015
LT COL MADHU GHOSH	NR-18819A	31 DEC 2015
LT COL KRISHNA JOLLY	NR-18831F	31 MAY 2015
LT COL SARA KUTTY PV	NR-18864M	31 MAY 2015
LT COL ANITA BANDYOPADHYAY	NR-18913K	31 DEC 2015
LT COL SANTHA PY	NR-18934A	30 NOV 2015
LT COL ALEY KT	NR-18967L	31 MAR 2015
LT COL GRACY KM	NR-18969W	31 MAY 2015
LT COL REKHA RANA	NR-18972W	31 MAR 2015
LT COL ANNIE PV	NR-18975K	31 MAY 2015
LT COL CHANDRIKA KUMARI R	NR-18994P	30 APR 2015
LT COL VANI CV	NR-18904H	31 JUL 2015
LT COL G PRABHAVATHI	NR-18254A	31 JAN 2015
LT COL(TS) JASWINDER KAUR	NR-17485K	31 MAR 2014
LT COL(TS) S P K BHATIA	NR-18273 F	31 MAR 2014
LT COL(TS) SARABJIT KAUR	NR-18191 H	31 MAR 2014
LT COL(TS) M SRINIVASAN RUKMANI	NR-17982 N	30 APR 2014
LT COL(TS) B REMA DEVI	NR-16715 A	31 MAY 2014
LT COL(TS) SHISHU BALA HORO	NR-17266 H	31 MAY 2014
LT COL(TS) SUSAN JOHN	NR-17438 M	31 MAY 2014
LT COL(TS) MARIAMMA P C	NR-18192 L	31 MAY 2014
LT COL(TS) SANTOSH JONEJA	NR-17952 W	30 JUN 2014
LT COL(TS) RAMA PODDER	NR-18434 H	30 JUN 2014
LT COL(TS) INDERJEET KAUR	NR-16665 A	31 JUL 2014
LT COL(TS) MARY STELLA MUTHIAH	NR-17886 Y	31 JUL 2014
LT COL(TS) INDIRA KUMARI K	NR-18015 L	31 JUL 2014
LT COL(TS) T JAYASREE	NR-18587 M	31 JUL 2014
LT COL(TS) SHANTHA BAGEWADI	NR-17400H	31 JUL 2014
LT COL(TS) MANJU KHOSLA	NR-16946 W	31 AUG 2014

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF RETIREMENT
LT COL(TS) MARIAMMA T P	NR-17687 L	31 AUG 2014
LT COL(TS) SHANTA M	NR-17730 F	30 AUG 2014
LT COL(TS) P THOMAS	NR-17184 A	30 SEP 2014
LT COL(TS) ANNAMMA MATHEW	NR-17735 A	30 NOV 2014
LT COL(TS) SANTHA C N	NR-18912 F	30 NOV 2014
LT COL(TS) C K SULEKHA	NR-17236 L	31 DEC 2014
LT COL(TS) TARA WATI YADAV	NR-18253 K	31 DEC 2014

PREMATURE RETIREMENT

Lt Col(S) Anup Sharma	NR-18108 A	31 Mar 2014
Lt Col(S) Vigneshwariamma	NR-17991 P	31 Oct 2014

SUSHILA SHAHI

Maj Gen

Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 203, dated 23rd August 2016—The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Jan 2016.

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
SL-04052	Col	M Navalan	SL AE
IC-40407	Col	Ashok Kumar Aggarwal	Inf
IC-40838	Col	Bijayananda Patnaik	Inf
IC-40986	Col	Pankaj Mital	Engrs
IC-41010	Col	Sekhar Roy	Inf
IC-41074	Col	Manohar Lal Gupta	Mech Inf
IC-41147	Col	Malay Shankar Kala	AAD
IC-41710	Col	Jaya Kumar Sinha	Arty
IC-41769	Col	Sanjay Kapoor	Mech Inf
IC-42151	Col	Rajiv Kumar Tyagi	Sigs
IC-42955	Col	Jarnail Singh	AAD
IC-42965	Col	Vineet Kishore	Arty
IC-43001	Col	Rajiv Kumar Srivastava, SM	Int Corps
IC-44685	Col	Yogendra Kumar	Sigs
IC-40409	Col(TS)	Satish Vasantmadhav Rao Deshpande	Sigs
IC-40705	Col(TS)	Arun Sharma	Engrs
IC-41391	Col(TS)	Jitendra Singh Thakur	Inf
IC-41526	Col(TS)	Mantosh Saha	Engrs
IC-41577	Col(TS)	Ramesh Kumar Chhibber	Arty

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-41714	Col(TS)	Sanjay Kumar	ASC
IC-42015	Col(TS)	Christopher John Rego	Engrs
IC-42050	Col(TS)	M Ravindra	Inf
IC-42195	Col(TS)	Sunil Kumar Joshi	Arty
IC-42536	Col(TS)	Brijdeep Singh, SM	AC
IC-42671	Col(TS)	Amrit Pal Singh	Arty
IC-42715	Col(TS)	Porje Arun Bhikaji	Engrs
IC-42718	Col(TS)	Sudeep Kumar Pandey	Sigs
IC-42993	Col(TS)	Kunwar Virendra Singh Thanua	ASC
IC-43081	Col(TS)	Gurpreet Singh Bawa	Mech Inf
IC-43646	Col(TS)	Ishwar Chandra Joshi	Engrs
IC-44181	Col(TS)	Parvinder Singh	AAD
IC-44248	Col(TS)	Raj Singh	Mech Inf
IC-44852	Col(TS)	MN Gopal	Inf
IC-44932	Col(TS)	Anand Kumar Singh	Engrs
IC-44961	Col(TS)	Shafique Alam Md	Engrs
IC-45406	Col(TS)	Praveen Mandotra	AC
IC-45512	Col(TS)	Krishna Chandra Upadhyaya	AAD
IC-45559	Col(TS)	Nirmal Singh	Engrs
IC-45574	Col(TS)	Abhay Arvind Deshpande	Mech Inf
IC-45592	Col(TS)	Bimal Rai	ASC
IC-45627	Col(TS)	Kartar Singh Sirohi	Inf
IC-45652	Col(TS)	Sumit Kumar Daw	Engrs
IC-45784	Col(TS)	Vishnu Das Chand	Inf
IC-45988	Col(TS)	Shivendra Kumar Shahi	ASC
IC-46082	Col(TS)	Harish Chandra Singh	Arty
IC-46121	Col(TS)	Brijesh Kumar	AOC
IC-47232	Col(TS)	Devendra Pal	EME
IC-47383	Col(TS)	Jagnar Singh	Int Corps
IC-47877	Col(TS)	Suresh Kumar Nara	Inf
IC-48453	Col(TS)	Shiv Darshan Joshi	Engrs
IC-48683	Col(TS)	Mahendra Singh Adhikari	ASC
IC-49411	Col(TS)	Rajiv Kumar Singh	EME
SL-03988	Lt Col	Trilok Ram Arya	SL BSO

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
SL-04256	Lt Col	Raj Kumar Singh	SL QM
SL-04459	Lt Col	Sham Singh Manhas	SL QM
SL-04569	Lt Col	Nasib Chand Bashotra	SL RO
SL-05092	Lt Col	Krishna Kumar Jha	SL CIPHER
SC-05097	Lt Col	Balwant Singh	SL CIPHER
IC-46000	Lt Col	Hemant Kumar Dogra	Arty
IC-49584	Lt Col	Pranab Kanti Ray	ASC
IC-49612	Lt Col	Hem Singh Nagar	AOC
IC-50601	Lt Col	Mohammad Gaffar	AC
IC-51194	Lt Col	Rampratap Nain	Int Corps
IC-51581	Lt Col	Rajendra Singh , SC	Arty
IC-51596	Lt Col	Mathew VV	Sigs
IC-51878	Lt Col	Arun Kant Tripathi	Arty

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 29 Feb 2016.

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
V-00364	Col	Devi Singh Rathore	RVC
IC-40307	Col	Sanjeev Shekhar, SC	Engrs
IC-41170	Col	Vivek Kumar Pandit	Inf
IC-41545	Col	Hardev Singh Kandhola	Inf
IC-41565	Col	Dilip Banerjee	Engrs
IC-41598	Col	S Jagpal	Arty
IC-41715	Col	Virinder Kumar Bagal	Arty
IC-41910	Col	Subir K Sharma	EME
IC-41973	Col	Rajeev Lochan Sharma, SM	Inf
IC-42430	Col	Manish Sarcar	Arty
IC-43651	Col	Swaminathan Prasad R	Signals
IC-45371	Col	Dhanjai Pal Singh Dadwal, SM	Inf
IC-48445	Col	Gopal Krishen Pandita	Engrs
IC-40603	Col(TS)	Raj Kishore Prasad	Arty
IC-40893	Col(TS)	Ganesh Prasad	Arty
IC-41020	Col(TS)	Rajan Kadyan	ASC
IC-41208	Col(TS)	Ulhas S Kulkarni	Inf
IC-41275	Col(TS)	Ravi Kumar PG	Arty

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-42678	Col(TS)	Ram Swroop Puri	Engrs
IC-43139	Col(TS)	Anil Sibal	AAD
IC-43639	Col(TS)	Onkar Murthy	Engrs
IC-43744	Col(TS)	Bhawani Datt Joshi	Engrs
IC-44367	Col(TS)	Glen John D'Cruz	AOC
IC-44397	Col(TS)	Anil Ram	AC
IC-44454	Col(TS)	Kuldeep Singh	Engrs
IC-45445	Col(TS)	Balinder Mohan Talwar	ASC
IC-45536	Col(TS)	Rajeev Pandey	AC
IC-45661	Col(TS)	Jatinder Paul	Inf
IC-45742	Col(TS)	Gautam Kumar Deb	AOC
IC-46130	Col(TS)	Dinkar Chaturvedi	Inf
IC-47538	Col(TS)	Satheesh Chandra Varma CR	Sigs
IC-48869	Col(TS)	Surender Pal Singh	EME
IC-49232	Col(TS)	Ashok Govind Jadhav	Inf
IC-48431	Lt Col	Simanta Sekhar Das	Engrs
IC-49046	Col(TS)	Ashwani Kumar	Arty
IC-49219	Col(TS)	Banwari Lal Doot, SM	Jag Dept
IC-49726	Lt Col	Navrattan Singh	Engrs
IC-50824	Lt Col	RK Sharma	EME
SL-04146	Lt Col	Mahan Singh	SL CIPHER
SL-04245	Lt Col	Basavanneppa Baragali	SL QM
SL-04249	Lt Col	Triveni Chandra Pandey	SL RO
SL-04335	Lt Col	Pawan Kumar Jamla	SL QM
SL-04338	Lt Col	Nani Gopal Patra	SL RO
SL-04358	Lt Col	Mastan Singh Jaswal	SL QM
SL-04391	Lt Col	Lokesh Bahadur Singh Rawal	SL QM
SL-04500	Lt Col	Sajjan Kumar	SL QM
SL-05081	Lt Col	Rattan Singh	SL CIPHER
SC-00116	Lt Col	Suba Singh	Engrs
IC-43090	Col(TS)	Pradeep Kochhar	Arty

The President is pleased to retire the under mentioned officers from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Mar 2016.

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-41077	Col	Dinesh Chaudhary	EME
IC-41491	Col	Satpal Ahlawat	Engrs
IC-42012	Col	Amit Saxena	Engrs
IC-42635	Col	Nirdosh Bhola Vishen	INT
IC-43144	Col	Sanjay Kumar Datta	Inf(Punjab)
IC-43189	Col	Anupam Kumar Sinha	EME
IC-48569	Col	Subhash Chand Rana	Inf(Sikh)
IC-40799	Col(TS)	Vankey Badola	Inf(Garhwal Rif)

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
IC-40945	Col(TS)	Shakti Singh Hooda	Inf(JAT)
IC-41038	Col(TS)	Tahseen Hussain	Inf(8 GR)
IC-41359	Col(TS)	Kamlendra Dutt Mishra	Inf(Bihar)
IC-41638	Col(TS)	Shyam Sunder Sharma	Inf(JAT)
IC-41693	Col(TS)	Harbir Singh	Sigs
IC-42126	Col(TS)	Deepak Kumar Sasan	Arty
IC-42248	Col(TS)	Devendra Singh Bisht	AEC
IC-42262	Col(TS)	Santosh Kumar Mishra	AEC
IC-42537	Col(TS)	Kanhaya Singh Fartiyal	Inf(Kumaon)
IC-43049	Col(TS)	Yashpal Balhara	Mech Inf
IC-43103	Col(TS)	Lalit Kapila	Inf(Grenadier)
IC-44370	Col(TS)	Prabh Preet	AOC
IC-44466	Col(TS)	Rajiv Sharma	Engrs
IC-44531	Col(TS)	Surendra Kumar Sharma	Arty
IC-44917	Col(TS)	Vidya Sagar	Engrs
IC-45128	Col(TS)	Yogesh Gurung	Inf(JAK LI)
IC-45352	Col(TS)	Rajiv Sachan	JAG
IC-45502	Col(TS)	Paramjit Singh Grewal	ASC
IC-45510	Col(TS)	Sanjay Mehta	Arty
IC-45515	Col(TS)	Pradeep Kumar Singh	Arty
IC-45744	Col(TS)	Vinay Kumar Varma	Sigs
IC-45954	Col(TS)	Rajesh Kumar Chauhan	AOC
IC-47229	Col(TS)	Dalwinder Singh	Inf(Bihar)
IC-48013	Col(TS)	Rakesh Bhangalia	Engrs
IC-48032	Col(TS)	Vijay Kumar Dubey	Engrs
IC-48911	Col(TS)	Parthasarathy R	Engrs
V-00382	Col(TS)	Lalit Kumar Yadav	RVC
IC-42617	Lt Col	Sunny Bakhshi	ASC
IC-47438	Lt Col	Krishna Kumar Singh	Mech Inf
IC-50872	Lt Col	Vincent D'Souza	Inf(Maratha Li)
IC-51546	Lt Col	P Kandasamy	Arty
IC-51575	Lt Col	Jagdev Singh	ASC
IC-51593	Lt Col	Balwan Singh	ASC

PERS NO.	RANK	NAME	ARM
SL-04044	Lt Col	Jagdish Singh Yadav	SL RO
SL-04236	Lt Col	Thomas PS	SL CIPHER
SL-04355	Lt Col	K Rama Subbu	SL QM
SL-05101	Lt Col	Ramdev Singh Sengar	SL (TEO/ARTY)
SL-05106	Lt Col	Mohammed Salim	SL AO
SC-00243	Lt Col	Padmanabhan C	Corps of Sigs

P K CHOUDHARY

Dy. Dir.

MS-7A

ARMY BRANCH

No. 204, dated 23rd August 2016— The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :-

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Lt Col Rajesh Yadav	TA-42365	(Infantry)	31 Jan 2016.
Lt Col Brahm Prakash	TA(M)-1172	(AMC TA)	31 Dec 2015 (AN)

M P SINGH

Under Secy

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

CORRIGENDUM

No. 205, Dated 24th August 2016—The President is pleased to make the following amendment: -

In the Government of India, Ministry of Defence, published in the Gazette of India, Part-I Section-IV dated 09 Jan 2016 under the heading REGULAR ARMY, PERMANENT COMMISSION, TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER, MILITARY SECRETARY'S BRANCH is hereby amended as under:-

FOR:-

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
11	IC-44060	BRIG	ANIL GAUTAM	AAD	20.06.14	26.06.14 with seniority from 03.01.12 without effect on pay and pension.

READ:-

Sl No	IC NO	RANK	NAME	ARM	D.O A/BRIG	D.O. SUBS BRIG/ NOTIONAL SENIORITY
11	IC-44060	BRIG	ANIL GAUTAM	AAD	20.06.14	20.06.14 with seniority from 03.01.12 without effect on pay and pension.

DEBASIS PRADHAN

Dy Dir/MS(X)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
 UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
 FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in